



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7—फरवरी 13, 2004 (माघ 18, 1925)  
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2004 (MAGHA 18, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 12 जनवरी 2004

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/भाग-II/1869--जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियाक्तों ने जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना क कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-----ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है।

## हिमाचल प्रदेश छूट प्राप्त

क्र.स	स्थापना का नाम और पता एवं कोड न.	छूट की प्रभावी तिथि	के.भ.नि.फा.न.
1.	मै. हिललेण्ड होटल कार्ट रोड, शिमला एचपी/11977	1.3.02 से 28.2.05	
2.	मै. दिवान चन्द्र आत्मा राम, दिमाल , शिमला एचपी/11814	1.11.02 से 31.10.05	
3.	मै. अशियाना रेस्टोरेंट छोटा, शिमला-2 एचपी/1855	1.3.02 से 28.2.05	
4.	मै. न्यू प्लाजा रेस्टोरेंट, शिमला एचपी/18027	1.5.02 से 30.4.05	
5.	मै. ईस्ट बोरन होटल, प्रा. लि. कालोनी, शिमला-2 एचपी/18121	1.1.02 से 31.12.04	
6.	मै. लौटरेट पब्लिक स्कूल भरारी, शिमला-171001 एचपी/18191	1.12.01 से 30.11.04	
7.	मै. नलिनी रेस्टोरेंट, शिमला एचपी/18306	1.5.02 से 30.4.05	
8.	मै. होटल अम्बर, रामबाजार, शिमला एचपी/11846	1.3.02 से 28.2.05	
9.	मै. कालरा हार्डवेयर इलेक्ट्रिक स्टोर, दिमाल, शिमला एचपी/1839	1.5.02 से 30.4.05	
10.	मै. सैक्रेड हार्ट कान्वेंट स्कूल, शिमला एचपी/8276	1.7.02 से 30.6.05	
11.	मै. चैप्लली स्कूल शिमला - I एचपी/11155	1.3.02 से 28.2.05	

12.	मै. द चैलटेस नालदेरा, शिमला एचपी/10994	1.9.02 से 31.8.05	
13.	मै. होटल क्रिस्टल, प्लेस , शिमला एचपी/1874	1.7.02 से 30.6.05	
14.	मै. आहुजा प्लास्टिक लि. यूनिट, दि डेविकोस , दिमाल , शिमला एचपी/11778	1.1.02 से 31.12.05	
15.	मै. होटल मयूर , दिमाल, शिमला, एचपी/11537	1.3.02 से 28.2.05	

## आन्ध्र प्रदेश छूट प्राप्त

क्र. स.	स्थापना का नाम और पता एवं कोड न.	छूट की प्रभावी तिथि	के. भ. न्. फा. न.
1.	मै. तीसरा सिस्टमस (इंडिया) प्रा. लि., प्लॉट न. 176 रोड न. 10, सी जुलबी हिल्स, हैदराबाद-560033 एपी/37869	1.7.01 से 30.6.04	
2.	मै. आई लैब लि., न. 97, रोड न. 3, बनजारा हिल्स, हैदराबाद- 500034 ए पी/39545	1.4.02 से 31.3.05	
3.	मै. अवनटैक सोफ्टेक लि. बी. आर. टी. कालोनी हैदराबाद-500076 एपी/32125	1.2.02 से 31.1.05	
4.	मै. प्रकाश डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. गर्वनर रोड ओन्गोली 523001 एपी/4983	1.1.90 से 31.12.92 और 1.1.93 से 31.12.95 और 1.1.96 से 31.12.98 और 1.1.99 से 31.12.01 और 1.1.02 से 31.12.04	
5.	मै. हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरीजीज , प्रा. लि. 37-5-89 मचूकोन्डा गार्डनस, नेशनल हाई वे #5 विशाखापटन-530007 एपी/3430	28.11.01 से 27.11.04	
6.	मै. बोबिली ओपरेटिव अर्बन बैंक लि., बोबिली 535558 विजीनाग्राम, डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र प्रदेश एपी/22995 /	21.11.01 से 20.11.04	
7.	मै. स्टील सीटी फूडस प्रा. लि., 49- 26-18 द्वितीय मंजिल, मधुरनगर विशाखापटनम एपी/30548	2.5.02 से 1.5.05	

8.	मै. ऊषाकिरण मनीज लि. रामोजी फिल्म सिटी भार आर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद-501572 एपी/42835	1.6.02 से 31.5.05	
9.	मै. न्यूज टूडे टैलीविजन प्रा. लि. ई टी वी बिल्डिंग रामोजी फिल्म सिटी आर.आर. डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद-561572 एपी/36473	1.6.01 से 31.5.04	
10.	मै. ताज ऐंजीडैनसी, रोड न.1 बनजारा हिल्स, हैदराबाद-500034 एपी/28401	1.11.01 से 31.10.04	
11.	मै. पी. ओबुल रैडरी पब्लिक स्कूल, रोड न.25, जुबली हिल्स, हैदराबाद-एपी/26048	1.3.99 से 28.2.02 और 1.3.02 से 28.2.05	
12.	मै. ग्लोबल कारपेट सर्विसेज प्रा. लि., 4 फस्ट प्लोर, महालक्ष्मी अपार्टमेन्ट 177, वेस्ट मैरेड प्पली सिकन्दराबाद-25 एपी/29145	1.3.02 से 28.2.05	
13.	मै. यूनिवर्सल ट्रेवल्स रामोजी फिल्म सिटी, आर आर डिस्ट्रीक हैदराबाद-501512 एपी/32131	1.4.01 से 31.3.04	
14.	मै. ऊषा करण टैलीविजन रामोजी फिल्स सिटी, आर.आर. डिस्ट्रीक हैदराबाद-501512 एपी/36424	1.3.01 से 29.2.04	
15.	मै. सनबीम रामोजी फिल्म सिटी आर.आर डिस्ट्रीक हैदराबाद-501512 एपी/32529	1.6.01 से 31.5.04	

16.	मै. डिवीस लैबोर्ट्रीज लि. 7.1.77 /ई/303/डिवी टावर्स, धर्म कर्ण रोड, अमीर पेट, हैदराबाद-50016 एपी/27434	1.10.01 से 30.9.04	
17.	मै. ऊषा किरण मूवीज, रामोजी फिल्म सीटी, आर.आर डिस्ट्रीक हैदराबाद-501512 एपी/32127	1.12.00 से 30.11.03	
18.	मै. होटल गोलकोन्डा 10.10.124 मसाब टैंक हैदराबाद एपी/25142	1.11.01 से 31.10.04	
19.	मै. कनफेडरेशन आफ वालन्ट्री एशोसिएशन, 20.4.10 नजदीक बस स्टैन्ड चारमीनार हैदराबाद एपी/37525	1.11.99 से 31.10.02 और 1.11.02 से 31.10.05	
20.	मै. तीसरा सिस्टम इंडिया प्रा. लि., प्लॉट न. 1 176, रोड न. 10 सी जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033 एपी/37869	1.7.02 से 31.6.04	
21.	मै. साकेत इंजीनियर्स प्रा. लि., 1.30/A, साकेत कपरा, ई सी आई एल, पो. ओ. हैदराबाद-500062 एपी/32126	1.2.02 से 31.1.05	
22.	मै. सपराई रिजन्स इंडिया प्रा. लि., 6.3.192, चौथा तल, माई होम टाकोस ग्रीन लैंड्स, बेगम पेट, हैदराबाद-500016 एपी/38249	1.7.01 से 30.6.04	
23.	मै. क्यूट सोल्यूशनस प्रा. लि. 4.7.145/2 नागनेनगर कालोनी हबसीगुडा, हैदराबाद-500007 ए पी/37605	1.10.01 से 30.9.04	

24.	मै. ए.पी.आई.टी.सी. ओ. लि. पैरीसरामा भवन, आठवी मंजिल बशीर चाग, हैदराबाद-500029 एपी/25139	1.6.00 से 31.5.03	
25.	मै. पैन्नर कैमिकल्स लि., तीसरी मंजिल सपतागिरि टावर्स बंगम पेट, हैदराबाद-500016 एपी/ 26335	1.7.01 से 30.6.04	
26.	मै. वाइसराय होटल लि., 1.3.1036/1 लीअर टैंक बांध रोड गांधी नगर हैदराबाद-500080 एपी/29820	1.3.99 से 28.2.02 और 1.3.02 से 28.2.05	
27.	मै. पोली इंकस प्रा. लि. 55 ओर 58, आई डी ए चेरलापल्ली, फेस-II, हैदराबाद-500051 एपी/30654	1.3.01 से 29.2.04	
28.	मै. हरीतेज फूड्स इंडिया लि., 6.3.641/सी, पंजाबगुटा हैदराबाद- 500482 एपी/29193	1.1.02 से 31.12.04	
29.	मै. डिवीस लेबोर्ट्रीज लि., 7.1.77 /ई/1/303 डिवी टावर्स, धर्म कर्ण रोड अमीर पेट, हैदराबाद-500016 एपी 27434-A	1.10.01 से 30.9.04	
30.	मै. डिवीस लेबोर्ट्रीज लि., 7.1.77 /ई/1/303 डिवी टावर्स, धर्म कर्ण रोड अमीर पेट, हैदराबाद-500016 एपी 27434-B	1.10.01 से 30.9.04	
31.	मै. श्रीराम एन्टर प्राइजेस 10.1/3, रामन्थपुर हैदराबाद एपी/20696	1.7.99 से 30.6.02 और 1.7.02 से 30.6.05	
32.	मै. सोबरन एन्टरप्राइजेस 10-10 राईस कम्पाउन्ड रामान्थपुर, हैदराबाद- 500013 एपी/34218	1..0.99 से 30.6.02 और 1.7.02 से 30.6.05	

33.	मै. ए. मुरली कृष्णा रैडडी 201 रिजैन्सी हाऊस, सोमाजी गुडा, हैदराबाद एपी/42767	1.4.02 से 31.3.05	
34.	मै. डोलफीन होटल लि., डाबागार्डनस विशाखापटनू-530020 एपी/12942	1.10.02 से 30.9.05	

## गोवा छूट प्राप्त

क्र.स.	स्थापना का नाम एवं कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के.भ. नि. फा. न.
1.	मै.कासिनो मेटल बार एण्ड रेस्टोरेनट गोवा गोवा /10381	1.3.02 से 28.2.05	
2.	मै.रूरल डब लपमैन्ट एजेन्सी शान्ता बिल्डिंग पणजी गोवा-403001 गोवा/10273	1.9.01 से 31.8.03	
3.	मै.नैबूला हामे प्रोडक्ट्स प्रा. लि., 53, पिलरर्ना इन्डस्ट्रीयल स्टेट, गोवा- 403511 गोवा/10707	1.4.98 से 31.3.01 और 1.4.01 से 31.3.04	
4.	मै. स्पोर्ट्स अथोटी आफ गोवा इन्दौर स्टेडियम काम्प्लैक्स पणजी गोवा- 403001 गोवा/10474	1.7.01 से 30.6.04	
5.	मै. सिटिजन कोपरेटिव बैंक लि. एच.आ. वास्को डीगामा गोवा/10394	1.3.00 से 28.2.03	
6.	मैसर्स नेट केबल इंडिया प्रा. लि. एल- 5 वरना इलक्ट्रॉनिक्स सीटी वरना गोवा-403722 गोवा/110215	1.6.02 से 31.5.05	



7.	मैसर्स मनोहर पैकिंग प्रा. लि. डी-2/6/7 माचिस इंडस्ट्रीयल स्टेट मायूस -गोवा/10741	1.3.02 से 28.2.05	
8.	मैसर्स स्पारो इलक्ट्रॉनिक्स लि., प्लॉट न. 97 वरना इलक्ट्रॉनिक्स सिटी वरना, गोवा-403722 गोवा/10689	1.7.00 से 30.6.03	
9.	मेरारा वीनस एथोक्साईओ प्रा. लि., विचोर्लिम इंडस्ट्रीयल स्टेट गोवा/10427	1.1.98 से 31.12.01	
10.	मैसर्स लैनर इलक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., वरना इंडस्ट्रीयल एस्टेट वरना गोवा-403722 गोवा/110109	1.3.02 से 28.2.05	
11.	मैसर्स शिवा एक्वूपमैन्टस प्रा. लि., प्लॉट न. 5 वरना इंडस्ट्रीयल एस्टेट वरना, गोवा-403722 गोवा/10605	1.3.02 से 28.2.05	
12.	मैसर्स क्वालपरी डायग्नोसिटिक्स प्लॉट न. 88/89, फेस-II वरना इंडस्ट्रीयल एस्टेट वरना गोवा-403722 गोवा/10504-A	1.8.02 से 31.7.05	
13.	मैसर्स इन्सूट्यूट आफ मेरी टाइम इंडस्ट्रीज आई.एस. बी.टी काम्पलेक्स बोगरा, वारको डा गामा गोवा-403802 गोवा/110228	1.9.02 से 31.8.05	
14.	मैसर्स स्टंपरोफाम कप्स एंड कन्टेनर्स प्रा. लि. 48-50 फेस-I-A सनकाल इंडस्ट्रीज एस्टेट गोवा-403726 गोवा/10781	1.7.02 से 30.6.05	
15.	मैसर्स जैकिर बायोमैनिक्ल्स एम 46/47 फेस-II -बी वरना इंडस्ट्रीयल एस्टेट वरना गोवा-403722 गोवा/110185	1.8.02 से 31.7.05	

## पंजाब छूट प्राप्त

क्र.स	स्थापना का नाम व पता और कोड न.	छूट की प्रभावी तिथि	के.भ.नि. फा. न.
1.	मै. सत्री साहिकलज प्रा. लि., सी-196, फोकल पाइन्ट, फेस-III, लुधियाना पीएन/16287	1.12.01 से 30.6.04	
2.	मै. मीलवा काँटन स्पीनिंग मिल्स लि. बरनाला डिस्ट्रीक संगरूर पीएन/10116	24.6.00 से 23.6.03	

## उत्तर प्रदेश छूट प्राप्त संस्थान

क्र. स.	स्थापना का नाम और पता एवं कोड न.	छूट की प्रभावी तिथि	के. भ. नि.फा. न.
1.	मै. ईमा इन्डिया लि. सी-37 पनकी इंडस्ट्रीयल ऐरिया पी.ओ. उद्योग नगर कानपुर-208022 कोड न. उ.प्र./6128	1.4.81 से 31.3.84 और 1.4.84 से 31.3.87 और 1.4.87 से 31.3.90 और 1.4.90 से 31.3.93 और 1.4.93 से 31.3.96 और 1.4.96 से 31.3.99 और 1.4.99 से 31.3.02 और 1.4.02 से 31.3.05	
2.	मै. सेठ आनन्द राम जैपुरिया स्कूल, 70 कैन्ट कानपुर कोड न. उ.प्र./10871	1.9.95 से 31.8.98 और 1.9.98 से 31.8.01 और 1.9.01 से 31.8.04	
3.	मै. कैलाश मोटर्स सर्विस स्टेशन, धी टी गडरियन पुरवा फजलगंज कानपुर कोड न. उ.प्र./2113	1.10.89 से 30.9.92 और 1.10.92 से 30.9.95 और 1.10.95 से 30.9.98 और 1.10.98 से 30.9.01 और 1.10.01 से 30.9.04	
4.	मै. गंहरिंग इंडिया सी-37, पनकी इंडस्ट्रीयल ऐरिया, उद्योग नगर कानपुर-208022 कोड न. उ.प्र./15026	1.1.90 से 31.12.92 और 1.1.93 से 31.12.95 और 1.1.96 से 31.12.98 और 1.1.99 से 31.12.01 और 1.1.02 से 31.12.04 और	
5.	मै. कानपुर ट्रेक्टर्स वर्कशाप 96/6 चुन्नीगंज कानपुर कोड न. उ.प्र./21555	1.8.99 से 31.7.02 और 1.8.02 से 31.7.05	

6.	मै. लॉहिया मशीनरी मैन्युफैक्चर्स लि. 499-560/A अमीलिहा चौबेपुर कानपुर कोड न. उ.प्र./14267	1.1.88 से 31.10.91 और 1.11.91 से 31.10.94 और 1.11.94 से 31.10.97 और 1.11.00 से 31.10.03	
7.	मै. कानपुर प्लाटर्स पेक लि. डी-19- 20 पनकी इंडस्ट्रीयल ऐरिया कानपुर- 208022 कोड न. उ.प्र./5067	1.1.90 से 31.12.92 और 1.1.93 से 31.12.95 और 1.1.96 से 31.12.98 और 1.1.99 से 31.12.01 और 1.1.02 से 31.12.04	
8.	मै. इनजैक्टो प्लास्ट प्रा. लि. प्लाट न. 485-बी, अमीलिहा चौबेपुर, कानपुर कोड न. 16925	1.4.93 से 31.3.96 और 1.4.96 से 31.3.99 और 1.4.99 से 23.6.00 और 24.6.00 से 31.3.03	
9.	मै. श्री इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि., डी-3/बी, पनी इंडस्ट्रीयल एस्टेट कानपुर-208022 कोड न. 11354	1.8.93 से 31.7.96 और 1.8.96 से 23.8.99	
10.	मै. कांठारी प्रॉडक्ट्स लि. 24/19, दि मल, कानपुर कोड न. 14201	1.6.93 से 31.5.96 और 1.6.96 से 31.5.99 और 1.6.99 से 31.5.02 और 1.6.02 से 31.5.05	
11.	मै. तिरुपति सर्विस लि. 84/105 जी टी रोड कानपुर-208003 कोड न. उ.प्र./19343	1.12.94 से 30.11.97 और 1.12.97 से 30.11.00 और 1.12.00 से 30.11.03	

## मध्य प्रदेश छूट प्राप्त

क्र. स.	स्थापना का नाम और पता एवं कोड न.	छूट की प्रभावी तिथि	के.भ.नि.फा. न.
1.	मै.लापड इन्सूलेशन इन्डिया लि., प्लॉट न. 102 ए के वी एन इंडस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर-454774 एमपी/9680	1.2.00 से 31.1.03	
2.	मै. कटनी सीमेंट प्रा. लि. 19/115 सिंही कालोनी बराही रोड कटनी मध्य प्रदेश एमपी/9381	20.8.01 से 19.8.04	
3.	मै. यूनिवर्सल केवल्स लि., पो.वो. न.9, सतना, मध्य प्रदेश एमपी/1511	1.6.88 से 31.5.91 और 1.6.91 से 31.5.94 और 1.6.94 से 31.5.97 और 1.6.97 से 31.5.00 और 1.6.00 से 30.6.03	
4.	मै. सायाजी होटल्स लि. एच/1 स्कीम न. 54 विजय नगर, इन्दौर, म.प्र. एमपी/10423	1.3.01 से 29.2.04	
5.	मै. एवरेस्ट जेम्स प्रा. लि., 199/A, इंडस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-I पीथमपुर, म.प्र. एमपी/7015	1.3.98 से 28.2.01 और 1.3.02 से 29.2.04	

## महाराष्ट्र छूट प्राप्त

क्र.स.	स्थापना का नाम और पता, कोड न.	छूट की प्रभावी तिथि	के.भ. नि. फा. न.
1.	मै. स्वाती फोफाईलन प्रा. लि. कन्सट्रक्शन हाउस 186/89-बी भण्डार कर इन्स्टीयूट रोड डी कान नीमखान पूणे-411004 एमएच/30804	1.7.01 से 31.3.02	
2.	मै. वर्षा एग्रो प्लास्ट प्रा. लि., कन्सट्रक्शन हाउस 186/189-बी भण्डारकर इन्स्टीयूट रोड डी कान जीमखना पूणे-411004 एमएच/30433	1.7.01 से 30.6.04	
3.	मै. वैसटून स्लग इन्डस्ट्रीज, 251/1 A&B हाउपसर इंडस्ट्रीयल एरिया हाडयसर, पूणे-411013 एमएच/30606	1.3.92 से 28.2.95 और 1.3.95 से 28.2.98 से और 1.3.98 से 23.6.00 और 24.6.00 से 23.6.03	
4.	मै. अमोंग प्लास्टोपैक प्रा लि., 786/189 बी, भण्डारकर इन्स्टीयूट पूणे-411004 एमएच/30803	1.7.01 30.6.04	
5.	मै. दि केसरी मराठा ट्रस्ट 568 नरायणपीठ पूणे-411030 एमएच/1222	1.3.89 से 28.2.92 और 1.3.92 से 28.2.95 और 1.3.95 से 28.2.98 और 1.3.98 से 23.6.00 और 24.6.00 से 23.6.03	
6.	मै. इन्डियन सीमलैस स्टील्स एंड एलाइज लि. जैजूरी मोरगोम रोड, गोव कोलवीहरी पो. ओ. जूही-412303, एमएच/31480	1.7.99 से 30.6.02 और 1.7.02 से 30.6.05	

## कर्नाटक छूट प्राप्त संस्थान

क्र.स.	स्थापना का नाम और पता कोड सं.	छूट की प्रभावी तिथि	के.भ.नि. फा. न.
1.	मै. महाजन एंजुकेशन सोसाइटी जयलक्ष्मी पुरम मैसूर-570012 के एन/22066	1.10.98 से 30.9.01 और 1.10.01 से 30.9.04	
2.	एक्लरी टैडिट नेटवर्क इंडिया प्रा. लि. एनद्वए. चेम्बर न. I प्लोर 3 पे 7 सी मैन-III ब्लाक तीसरा क्रॉस कारोनगला, ब्लॉक बैंगलोर-560034 केएन/24283	1.3.00 से 28.2.03	
3.	मै. डिकिनसन फ्यूवर लि. प्लॉट न. 249, 250 बामोसन्दरा इंडस्ट्रीयल एरिया थर्ड फेस बैंगलोर 562158 केएन/34098	1.12.01 से 30.11.04	
4.	मै. फायुलर वेसस इंडिया प्रा. लि. प्लॉट न 249-250 बामोसन्दरा इंडस्ट्रीयल एरिया थर्ड फेस बैंगलोर केएन/34070	1.12.01 से 30.11.04	
5.	मै. एल एंड टी कोमात्सू लि. बैलारी रोडे ब्यातरायणपुरा बैंगलोर 560092 केएन/1072	1.6.99 से 30.5.02	
6.	मै. गोरीशंकर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज न. 269 4 प्लोर पोन्पा इंडस्ट्रीयल एरिया बैंगलोर 560058 केएन/19520	1.12.01 से 30.11.04	
7.	मै. के आर.ई.सी. इंगलिश मीडिया हाई स्कूल, श्री निवास नगर, सुरथकल - 574154 डी के/20035	1.8.01 से 31.7.04	

9.	मै. सासकेन कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी लि., 139/25 अमर ज्योती लेआउट, रिंगरोड डामेबूट पो.ओ. बैंगलोर - 560071 केएन/14943	1.3.01 से 28.2.04	
10.	मै. पारसमैन्टिक इंजीनियरिंग प्रा. लि., 147, ए आठवां मेन, तीसरा ब्लॉक, कोरानगला, बैंगलोर - केएन/ 23311	1.5.01 से 29.2.04	
11.	मै. इडिया टेक्नोलोजी सेंटर प्रा. लि. मोहन एफबैच्च टेक्नालिजी सेंटर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीयल पार्क, फेस-2, प्लॉट न. 122 हार्ड विलेज ब्रह्मट फील्ड रोड, बैंगलोर इ56066 केएन/24496	1.4.02 से 31.3.05	
12.	मै. नवल रेयरोन्स, 1. 103 थ्रड लेस रोड इंडस्ट्रीयल हाऊस राजाजी गनर बैंगलोर-560044 केएन/13848	1.3.01 से 29.2.04	
13.	मै. बेल कैरमिक्स विलेज चौका हाली टीके होजकोटी डिस्ट्रीक बैंगलोर रूख कर्नाटका इ562114 केएन/23089	1.3.00 से 28.2.03	
14.	मै. सी. एम ए सी सैनटम इलेक्ट्रॉनिक लि. न. 44 के एचबी इंडस्ट्रीयल एरिया येलेहानका बैंगलोर-560064 केएन/23479	1.1.02 से 31.12.04	
15.	मै. टीम सांघी एडवटींग प्रा. लि. एम बी सी फस्ट प्लोर न. 134 इन फैक्ट्री रोड बैंगलोर इ560001 केएन 13976	1.1.96 से 31.12.98 और 1.1.99 से 31.12.01 और 1.1.02 से 31.12.04	
16.	मै. सेलसोण्डस 103 इंडस्ट्रीयल टाउन बैंगलोर इ560044 केएन/18301	1.3.01 से 29.2.04	
17.	मै. नेटवर्क सोल्यूशन्स लि. न. 674, 6 क्रास थर्ड ब्लॉक कारेमंगला बैंगलोर-560034 केएन/18966	1.3.01 से 29.2.04	
19.	मै. सडेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., 74, डी वियोनोक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी होसूर रोड बैंगलोर -561229 केएन/19455	1.4.02 से 31.3.05	

20.	मे. कृष्णा मूर्ति फाउन्डेशन इंडिया दि बैली स्कूल सेवन्टाय के. एम कनकासपुरा रोड आरगुनी पोस्ट बैंगलोर -560062 के एन/11764	1.4.02 से 31.3.05
21.	मे. फानुक इंडिया प्रा. लि. 41 इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी हासुर रोड बैंगलोर -561229 के एन/18171	1.3.95 से 28.2.98 से और 1.3.98 से 28.2.01 और 1.3.01 से 28.2.04
22.	मे. जी आर वी इन्टरनेशनल फस्ट, सैकेन्ड मैन, फस्ट ब्लॉक, जी जी पालिया यशवन्तपुर बैंगलोर -560022 के एन/29274	1.7.02 से 3.6.05
23.	मे. हेल्थ स्करीव इंडिया लि. न. 1 हेल्थ स्करीव प्लाजा कारेमंगला ब्लॉक .8 बैंगलोर -560095 के एन/19360	1.11.01 से 31.10.04
24.	मे. एसोशिएट केमिशियल इन्टरप्राइजेस प्लॉट न. 40 ई ओइनाकुडी इंडस्ट्रीयल एरिया महादेवपुरा, बैंगलोर -560048 के एन/15079	11.6.01 से 31.5.04
25.	मे. डी टी एस इनफार्मेशन सिस्टम प्रा. लि.,-48 लीडन स्ट्रीट पारग्रावा रोड आस्टीन टाउन बैंगलोर-560047 के एन/24017	1.9.99 से 31.8.02 और 1.9.02 से 31.8.05
26.	मे. एम एम टी इंडिया प्रा.लि. 71/सी डोडा योगुरे इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बैंगलोर साऊथ -561229 के एन/34031	1.7.02 से 30.6.05
27.	मे. बेबेस्पेक्ट्रम सॉफ्टवेयर प्रा. लि. न. 818 I प्लोर तेरवा कास सेवन्थ ब्लॉक बैस्ट ज्यानगर बैंगलोर 560082 के एन/23840	1.7.02 से 36.05
28.	मे. जी सी आई एक्सपोर्ट प्रा. लि., A- 73 के एस एस आई टी सी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बोमासन्दरा बैंगलोर-562158 के एन/24021	1.4.01 से 31.3.04
29.	मे. इन्टरप्लैक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. , 89A- इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी हासुर रोड बैंगलोर -561229 (के एन/24271)	1.4.01 से 31.3.04



30.	मै.भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लि., थर्ड प्लोर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग, 10/318 नरूपाटुनगा रोड बैंगलोर -561000 के एन/19774	1.3.97 से 29.2.00 और 1.3.00 से 28.2.03
31.	मै. एलबीआन ट्रेवल्स कुमुडावती बिल्डिंग बलमाता, बैंगलोर -575002 के एन/12018	1.1.02 से 31.12.04
32.	मै. टाटा एडवान्सड मैरियल लि., 10 जीगानी इंडिस्ट्रीयल एरिया जीमानी 562106 बैंगलोर डिस्ट्रीक केएन/19242	1.3.01 से 29.2.04
33.	मै. एस.सी. आई कारबन बशिस प्रा.लि. 69/1 A बैंगूर हुबली बीमत्रा हाली, बैंगलोर -560068 केएन 14743	1.1.00 से 31.12.02
35	मै.टिकन इंजीनियरिंग एंड रिचस इंडिया प्रा. लि., न 32 गेप गार्डन 17 एच मैन रोड 6 ब्लॉक कारमंगला बैंगलोर - 560095 के एन/24164	1.7.02 से 30.6.05
36.	मै. सनोमैन फरोजन फूड्स लि. न. 570 पांचवी मैन सतारह क्रॉस इन्द्रानगर सैकेंड स्टेज बैंगलोर -560038 केएन/23090	1.10.01 से 30.9.04
37.	मै. टी टी इंटरप्राइजेस प्रा. लि. 102 रहेजा चैम्बर्स 12 न्यजियन रोड बैंगलोर 560001 के एन 14617	1.4.02 से 31.3.05
38.	मै. केनरा इंजीनियरिंग कालिज बैनजान पाडेवू बन्तवाल ताल्लुक के एन/20538	1.12.01 से 30.11.04
39.	मै.नारायणा हस्डयाला प्रा. लि. न. 258 ए बामोसन्दरा इंडस्ट्रीयल एरिया बैंगलोर-562158 केएन /34066	1.11.02 से 31.10.05
40.	मै. यू.वी. सरि टस प्रा. लि. 48/ए, 158/2 एन ब्लॉक फिफ्थमैन रोड, थर्ड स्टेज राजाजी नगर बैंगलोर -56211 0 के एन/13111	1.2.01 से 31.1.04

41.	मै. पुत्तर पैट्रो प्रोडक्ट्स लि. 187 नेहरू नगर पुत्तुर 574203 के एन/20239	1.10.99 से 30.9.00 और 1.10.030.9.05
42.	मै.के मोहन एंड कम्पनी एक्सपोर्ट रजि. न. 16/3बीरासान्द्रा विलेज, हेबा गोडी पोस्ट होसूर रोड बैंगलोर-562128 केएन/34036	1.5.01 से 30.4.04
43.	मै. अयूमा इंडिया लि. प्लान न. 39 बी द्वितीय फेस इंडस्ट्रीयल एरिया बैंगलोर 560058 के एन/10676	1.1.00 से 31.12.02
44.	मै. एमसोफ्ट इनफार्मेशन सर्विस इंडिया प्रा. लि. न. 121 सिक्स प्लोर दि एस्टेट डिक्नसन रोड बैंगलोर 562142 केएन/23428	1.9.99 से 31.8.02 और 1.9.02 से 31.8.05
45.	मै. आटो लीव आई.एफ.बी. इंडिया प्रा. लि. न. 16 विश्वेशवरियाह इंडस्ट्रीयल एस्टेट I मेन रोड आ. ब्हाईट फील्ड रोड महादेवपुरा बैंगलोर-562148 केएन/19173	1.3.99 से 28.2.02
46.	मै. भंडारी मेटल्स एंड एलायण सेवथ मील हासूर रोड बैंगलोर -562148 के एन/5678	1.10.89से 30.9.92 और 1.10.92 से 30.9.95 और 1.10.95 से 30.9.98 और 1.10.930.9.01 और 1.10.01 से 30.9.04
47.	मै. हिन्दयाल प्रा. लि. साइट न. 17 फेस -I पिनिया इंडस्ट्रीयल एरिया बैंगलोर - 560058 के एन/3649	1.10.02 से 30.9.05
48.	मै. एक्सीज टेक्नोलोजी इंडिया एल्का कार्बोन् लोरेना प्रा. लि. न. 5 बामोसन्दरा इंडस्ट्रीयल एरिया बैंगलोर -562158 केएन/18912	1.2.96 से 31.1.99 और 1.2.99 से 31.1.02 और 1.2.02 से 31.1.05
49.	मै. कान्टीनेन्टील एक्सपोर्ट न. 7 मीलर टैंक बैड एरिया आफ क्वीन्स रोड, बैंगलोर -562052 केएन/5717	1.4.99 से 31.3.02

50.	मै. न्यू किरण परोशर्स बाडगो माइजर अश्वथापुरा मैगलोर तालुक केएन/20483	1.12.02 से 30.11.05
51.	मै. जैता इन्फोटेक प्रा. लि. उदयावानी बिल्डिंग मणिपाल-576119 के एन/20294	1.1.03 से 31.12.05
52.	मै. होटल ग्रीन पार्क मणीपाल - 576119 उडुप्पी डिस्ट्रिक्ट के एन/12257	1.3.03 से 28.2.06
53	म. एलका न लेबोर्टीज इंडिया प्रा लि., सातवा तल, गोपाल कम्प्लेक्स, 45/3, रजिडेन्सी मार्ग क्रास, बैंगलूर, केएन/19618	1.1.2001 से 31.12.2003
54	मै. कौनकेव ट्रवेल सर्विस प्रा लि., बी- 2, , जनक रेजीडेन्सी करमारा पार्क मार्ग, केएन/24288	1.3.2000 से 28.2.2003
55	मै मै. एक्सीज टेक्नोलॉजी इंडिया एल्का कार्बोन् लोरेना प्रा. लि. न. 5 बामोसन्दरा इंडस्ट्रीयल एरिया बैंगलूर इ 562158, केएन/24043	1.6.2000 से 31.5.2004

अनुसूची- 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे ।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे ।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय ,लेखाओं का अन्तरण ,निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों के एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त ।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा ,जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय है ।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारीकी मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में सदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारीको विधि वारिस /नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।  
सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी

- संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाय तो रद्द किया जा सकता है ।
  10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करे प्रीमियम का संदाय असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यंगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है ।
  11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तदायित्व नियोजक पर हो गा ।
  12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दातो /विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं.2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/पार्ट-1

( सय. भव. जोशी )  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -1

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-II/1878

जहाँ अनुसूची -1 में उल्लिखित नियाक्तों ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार /केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची - II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है (जैसा कि संलग्न अनुसूची एक में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है)।

## अधिसूचना-11

क्र. सं०	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	स्थापना का नाम व स्थापना का सं०	घुट के विस्तार की अवधि
1.	2/1959/डीएलआई/घुटप्राप्त/ पार्ट-1/5769 दि. 30. 3. 01	मै० स्केन सिनैमेटिक लि० भिवानी ॥आरजे-9116॥	24. 6. 2000 23. 6. 2003
2.	-वही- दिनांक 13. 5. 93	मै० जख्दी एणों केमिकलस लि० जयपुर ॥आरजे-3315॥	1. 3. 95 28. 2. 98 1. 3. 98 28. 2. 2001 1. 3. 2001 29. 2. 2004
3.	-वही- दिनांक 19. 5. 86	मै० जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० जयपुर ॥आरजे-1324॥	19. 5. 89 18. 5. 92 19. 5. 92 18. 5. 95 19. 5. 95 18. 5. 98 19. 5. 98 18. 5. 2001 19. 5. 2001 18. 5. 2004
4.	-वही- दिनांक 4. 1. 2001	मै० जयपुर रोलर मिल्स ॥प्रा०॥ लि० जयपुर ॥आरजे-4604॥	24. 6. 2000 23. 6. 2003
5.	-वही- दिनांक 30. 3. 2001	मै० गिन्नी इन्टर नेशनल लि० नीमराना जिला अलवर ॥राज॥ ॥आरजे-9163॥	24. 6. 2000 23. 6. 2003

## अधिसूचना-11

क्र. सं०	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	स्थापना कोड सं०	छूट के विस्तार की अवधि
1.	2/1989/डीएलआई/छूट प्राप्त/ 89/पार्ट-1/37023 दि. 27. 1. 99	मे० केडिला हेल्थ केयर लि० जीजे/एसआरटी/3993	1. 3. 1999 28. 2. 2002
2.	2/1989/डीएलआई/छूट प्राप्त/ 89/पार्ट-1/37023 दि. 10. 3. 99	मे० ग्राम सेवा ट्रस्ट ॥ जीजे-एसआरटी- 31006॥	1. 2. 2001 31. 1. 2004

क सं.	अधिसूचना एवं दिनांक	संस्थान का नाम एवं कोड न.	छूट का समय
1	2/1959/ईडीएलआई/89 पार्ट-1 दिनांक 4/9/79	मै. हिन्दुस्तान मोटर्स पी.ओ. हिन्दमोटर जिला हुगली (डब्ल्यू बी/390)	17.12.01 to 16.12.2004
2	वही दिनांक 15.11.977	मै. मदर डेयरी कलकत्ता पो.ओ. डकूनी कोल कम्प्लैक्स जिला हुगली (डब्ल्यू बी/16628)	1.2.98 से 31.1.01, 1.2.01 से 31.1.02



## अधिसूचना-11

क्र. सं०	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	स्थापना का नाम व स्थापना कोड सं०	फुट के विस्तार की अवधि
1.	2/1959/डीएलआई/फुटप्राप्त/ 89/पार्ट-1/567 दि. 27. 2. 97	मे० शरेबुज एंड कम्पनी लि० 405 धर्म पैलेस मुम्बई-400007 ॥एमएच-24581॥	1. 2. 1998 31. 1. 2001 1. 2. 2001 31. 1. 2004
2.	-वही -	मे० -वही- ॥एमएच-24581॥	1. 2. 1998 31. 1. 2001 1. 2. 2001 31. 1. 2004
3.	-वही-	मे० -वही - ॥एमएच-24581बी॥	1. 2. 1998 31. 1. 2001 1. 2. 2001 31. 1. 2004
4.	-वही-	मे० डीजीपी हिनोदय इन्डस्ट्रीज लि०, पुणे- 410506 ॥एमएच-32244॥	1. 4. 2001 31. 3. 2004
5.	-वही- पार्ट-1/1910 दि. 13. 11. 91	मे० इन्डोकेम लि० कम्पाउन्ड 7/सी भागोजी कीर मुम्बई-400016 ॥एमएच-2338॥	1. 3. 1993 28. 2. 1996 1. 3. 1996 28. 2. 1999 1. 3. 1999 28. 2. 2002 1. 3. 2002 28. 2. 2005
6.	-वही- पार्ट-1/1617/दि. 8. 4. 1993	मे० पेस्ट कन्ट्रोल इन्डिया लि० गुलफ बिल्डिंग एम जी. रोड फोर्ट मुम्बई 400001 ॥एमएच-4029॥	1. 8. 1993 31. 5. 1996 1. 6. 1996 31. 5. 1999 1. 6. 1996 31. 5. 1999 1. 6. 1999 31. 5. 2002 1. 6. 2002 31. 5. 2005

## अधिसूचना-11

क्र. सं०	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	स्थापना का नाम स्थापना कोड सं०	छूट के विस्तार की अवधि
7.	-वही- पार्ट-1/1817 दि. 8. 4. 1993	मे० -वही- ॥एमएच-4029ए॥	1. 6. 1993 31. 5. 1996 1. 6. 1996 31. 5. 1999 1. 6. 1999 31. 5. 2001
8.	-वही- पार्ट-1/5502 दि. 15. 1. 2000	मे० दि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि० अकोला-4440001 ॥महाराष्ट्रा॥ ॥एमएच-6934॥	7. 2. 2001 6. 2. 2004
9.	-वही- पार्ट-1/दि. 5. 1. 1998	मे० टाटा इन्फोमिडिया लि० 414 वीर सावरकर मार्ग प्रमादेवी, मुम्बई 400025 ॥एमएच-986॥	1. 3. 1996 28. 2. 1999 1. 3. 1999 28. 2. 2002 1. 3. 2002 28. 2. 2005
10.	-वही- पार्ट-1/36176 दि. 24. 1. 1999	मे० एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन लि० धन- राज महल मुम्बई- 400001 ॥एमएच-18863॥	19. 3. 2001 18. 3. 2004
11.	-वही- पार्ट-1/2411 दि. 2. 11. 98	मे० एशिया ब्राउन बोवैरी लि. वीरा देसाई रोड, अधेरी ॥ई॥ मुम्बई-400053 ॥एमएच-4367॥	25. 11. 1997 24. 11. 2000 25. 11. 2000 24. 11. 2003
12.	-वही- पार्ट-1/37161 दि. 12. 3. 1999	मे० केमलोन लि० जेबी नगर अधेरी ॥ई॥ मुम्बई 400059 ॥एमएच-9560॥	28. 8. 2001 27. 8. 2004
13	-वही- पार्ट-1/36176 दि. 24. 1. 99	मे० सेंचुरी टेक्स्टाईल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० पी. बी. मार्ग मुम्बई-400025 ॥एमएच-96॥	25. 11. 2000 24. 11. 2003

## अधिसूचना-11

क्र. सं०	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	स्थापना का नाम व स्थापना कोड सं०	फ़ट के विस्तार की अवधि
		॥एमएच-4269॥	2. 01. 2001 1. 01. 2004
14.	-वही- पार्ट-1/3593 दि. 2. 5. 1993	मि० कोरेज ॥इन्डिया॥ लि० डा० ई. मोहन रोड वरली मुम्बई-400018 (एमएच-4996)	1. 3. 1996 28. 2. 1999 1. 3. 1999 28. 2. 2002
15.	-वही- पार्ट-1/1558 दि. 16. 6. 1999	मि० आईओएन एक्सपेन्स इन्डिया लि० डा० ई. मोहन रोड मुम्बई-400011 ॥एमएच-8208॥	1. 6. 2002 31. 5. 2005

## महाराष्ट्र

क.स.	अधिसूचना एवं दिनांक	स्थापना का नाम	कोड सं	छूट की प्रभावी तिथि
1.	2/1959/डीएलआई/ एकजम/89/पार्ट-1 दिनांक 12.2.96	मैसर्स साई सर्विस स्टेशन लि. 462, सेनापती बापत मार्ग लवप्यर्ल, मुम्बई- 400013 एमएच/35070	एमएच/35070	1.3.1996 से 28.2.1999 और 1.3.1999 28.2.2002 और 1.3.2002 से 28.2
2.	वही दिनांक 26.3.1993	मैसर्स इन्डियन एल्मिनियम कम्पनी लि. बेलापुर रोड कलवा थाने -400605	एमएच/616	23.10.1993से 22.10.1996और 23.10.1996से 22.10.1999और 23.10.1999से 22.10.2002और 23.10.2002से
3.	वही दिनांक 31.1.00	मैसर्स हैइंज इन्डिया प्रा.लि. डी शिवसागर एण्ड 8 वी मंजिल ए.बी.रोड वोरली मुम्बई- 400018	एमएच/40581	11.10.2005 1.10.2003से 30.9.2006
4.	वही दिनांक 21.11.1990	मैसर्स वेस्ट अन्डर टेकिंग बेस्ट हाउस पी.बी.192 मुम्बई-400039	एमएच/1568	1.4.1993से 31.3.1996और 31.4.1996से 31.3.1996और 1.4.1999से 31.3.2002और 1.4.2002 से 31.3
5.	वही दिनांक 23.1.01	मैसर्स विपल्स मोबाईल हॉस्पिटल, पी.एम.एच. बिल्डिंग डा. अमील बंसल रोड वरली मुम्बई- 400025	एमएच/3654	1.6.1999से 31.5.2002 और 1.6.2002 से 31.5.2005

गोवा

क्र. सं.	अधिसूचना एवं दिनांक	संस्थान का नाम एवं कोड न.	छूट का समय
1.	2/1959/ई.डी.एल आई/छूट/89/पीटीआई/ दिनांक 15.11.07	मै. इलक्ट्रो इंजीनियरिंग एन्टर प्राईजेस, पो.ओ. 125 मारगो, गोवा- 403601, गोवा/10127	1.4.99 से 31.3.02, 1.4.02 से 31.3.05
2.	2/1959/ई.डी.एल आई/छूट/89/2874 दिनांक 15.11.97	मै. चौगले एण्ड कम्पनी लि. चौगले हाउस गोवा-403803, गोवा/9729	1.4.99 से 30.11.01
3.	2/1959/ई.डी.एल आई/छूट/89/पीटीआई/ 36392 दिनांक 4.2.99	मै. नानू रेजोर्टस (प्रा.) लि. ननूहाउस वारडे वालेलिकार रोड मारगो, गोवा-403601, गोवा/10561	1.9.99 से 31.8.02
4.	2/1959/ई.डी.एल आई/छूट/89/पीटीआई/ दिनांक 16.4.96	मै. सपना सेरामिक्स प्रा. लि. पो. बोक्स -125 मारगो गोवा- 403601, गोवा/10127 एफ	1.1.2000 से 31.12.02
5.	2/1959/ई.डी.एल आई/छूट/89/पीटीआई/ दिनांक शून्य	मै. हेराल्ड, डियोगी डी कुट्टु रोड, पो.बोक्स -160 पनजीग गोवा- 403001, गोवा/9714	1.8.91 से 31.7.94, 1.8.94 से 31.7.97, 1.8.97 से 31.7.00, 1.7.00 से 31.8.03

तमिलनाडु

क.सं.	अधिसूचना एवं दिनांक	संस्थान का नाम एवं कोड न.	छूट का समय
1.	2/1959/डीएलआई/एक्सम/ 89/पार्ट-1 दिनांक 1.6.98	मै. यूनिको लैडर प्रोडैक्ट्स प्रा. लि. पल्ली कोण्डा -635809 टीएन/30073	1.3.00 से 23.6.00 24.6.00 से 28.2.03
2	वही दिनांक 29.8.01	मै.आई.आर.टी पोलिटैक बिक, तिरुनेलवली टीएन/33045	24.6.02 से 23.6.05
3	वही दिनांक 26.10.99	मै. वानाविल डाइज एंड कैमिकल्स लि. कुडडालर तथा शाखाए टी एन17523	1.3.02 से 28.2.05
4	वही दिनांक 19.5.99	मै. काली इंजीनियरिंग कनासल टैन्सी एंड सर्विस टीएन/17019-ए	1.4.01 से 31.3.04
5	वही दिनांक 16.3.99	मै. दि कुम्बाकोनम मचुअल बैनिफिट्स फंड लि. टीएन/1916	1.3.99 से 28.2.02
6	वही दिनांक 9.2.01	मै. कालेश्वरी फायर वर्क्स प्रशा. कार्यालय शिवकासी टीएन/4397	1.3.02 से 28.2.05
7	वही दिनांक 8.2.99	मै. मनी सिपनिंग मिल्स प्रा. लि.टीएन/19121	1.12.00 से 31.11.03
8	वही दिनांक 1.4.99	मै. अदीसंधरा सिपनिंग मिल्स प्रा. लि. टीएन/41095	1.2.01 से 31.1.04
9	वही दिनांक 1.4.99	मै. वियास एलोयस प्रा. लि. कौयम्बटूर टीएन/28624	1.8.00 से 31.7.03
10	वही दिनांक 15.5.99	मै. जी.डी. होष्ट प्रा. लि. टीएन/6935	1.5.00 से 3.4.03
11	वही दिनांक 23.1.99	मै. जीसटैक्स इंजीनियरिंग लि. टीएन/17552	1.9.99 से 30.11.00, 1.12.00 से 30.11.03
12	वही दिनांक 26.10.89	मै. टैक्सटूल क.लि. टीएन/77-ए	1.3.90 से 28.2.94, 1.3.94 से 28.2.97, 1.3.97 से 29.2.00 , 1.3.00 से 28.2.03

13	वही दिनांक 30.4.00	मै. प्रिमियर पोलिट्रोनिक्स प्रा. लि. टी एन/17467	1.8.02 से 31.7.05
14	वही दिनांक 30.3.00	मै. जय लक्ष्मी मशीन वर्क्स, टीएन/21425	1.3.02 से 28.2.05
15	वही दिनांक 22.9.99	मै. रोटोक कंट्रोलस इंडिया लि. तथा 4 शाखाए टीएन /22330	24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 28.2.04
16	वही दिनांक 2.12.96	मै. मद्रास प्रेसिडेंसियल चैम्बर टीएन/8155	1.4.96 से 22.6.98, Restracted up to 22.6.98
17	वही दिनांक 13.1.00	मै. वी आर पी इण्डिया प्रा. लि. टीएन/11922	1.4.02 से 31.3.05
18	वही दिनांक 23.11.95	मै. बोम्बे अमोनिया (एम एस) प्रा. लि. टीएन/3230	1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01 1.3.01 से 29.2.04
19	वही दिनांक 26.10.97	मै. नैपयून रेफ्रीजरेशन कम्पनी प्रा. लि. तथा एक शाखा टीएन/10965	1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
20	वही दिनांक 1.4.99	मै. पोण्डीचेरी एडी ट्राविडर डवैलपमेंट कापोरेशन लि. तथा शाखाए टीएन/523	1.6.00 से 31.5.03
21	वही दिनांक 14.1.00	मै. ब्लैक स्टोन मार्किट फैक्टर्स (इंडिया) प्रा. लि. टीएन 40583	24.6.00 से 31.6.00 1.11.00 से 31.10.03
22	वही दिनांक 17.11.99	मै. जय बालाजी एंड कम्पनी टीएन/17267	24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
23	वही दिनांक 12.4.93	मै. इलास्टो मिल्ल्स प्रा. लि. टीएन/22322	1.11.95 से 31.10.98, 1.11.98 से 23.6.00, 24.6.00 से 31.10.00, 1.11.00 से 31.10.03

24	वही दिनांक 19.4.99	मै. फलोसर्व सनमार लि. टीएन/9620	1.4.93 से 31.8.96, 1.4.96 से 31.3.99, 1.4.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 23.6.03
25	वही दिनांक 19.3.99	मै. लोटस इंडस्ट्रीज टीएन/8569	1.3.00 से 23.6.00, 24.6.00 से 23.6.03
26	वही दिनांक 2.8.02	मै. कम्पास शिपिंग ट्रेडिंग प्रा. लि. तथा 5 शाखाएं टीएन/36819	24.6.00 से 23.6.03
27	वही दिनांक 13.1.00	मै. ऐ आई एल इंडस्ट्रीज तथा 5 शाखाएं टीएन/6993	24.6.00 से 31.7.00, 1.8.00 से 31.7.03
28	वही दिनांक 10.1.99	मै. प्रोडैक्टिविटी एलिमेन्ट्स प्रा लि. टीएन/5374	24.6.00 से 31.7.00, 1.8.00 से 31.7.03
29	वही दिनांक 20.5.99	मै. प्रिमियर कार्बन इंडस्ट्रीज टीएन/30997	24.6.00 से 31.1.01, 1.2.01 से 31.1.04
30	वही दिनांक 8.11.00	मै. पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजर्स टीएन/10219	24.6.00 से 30.9.00, 1.10.00 से 31.9.03
31	वही दिनांक 9.2.01	मै. अमूल्य सी फूड्स टयूरीकारीन टीएन/20977	24.6.00 से 31.8.01
32	वही दिनांक 14.1.00	मै. लैडर क्राफ्ट (इंडिया) प्रा. लि. टीएन/16582	1.9.01 से 31.8.04
33	वही दिनांक 19.3.99	मै. मैक डोवल एंड कम्पनी (टीएन/281)	1.6.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 23.6.03
34	वही दिनांक 1.4.99	मै इंडिया कोमनेट इन्टरनेशनल प्रा. लि. टीएन/36297	1.3.01 से 29.2.04
35	वही दिनांक 13.5.97	मै. सोमासुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर, टीएन/53	1.4.96 से 31.3.99, 1.4.99 से 31.11.00
36	वही दिनांक 2.8.02	मै. महर्षि विद्या मंदिर सिनियर सैकेंडरी स्कूल टीएन/23143	1.0.98 से 30.9.01, 1.10.01 से 30.9.04
37	वही दिनांक 13.1.99	मै. वहील इंडिया लि. पाडी, टीएन/ 3731	1.12.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 30.11.00 1.12.00 से 30.1.03



38	वही दिनांक 14.11.97	मै. अलगेनद्रा टेक्सटाइलस लि. येनी, टीएन/ 16354	1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 28.2.02, 1.3.02 से 28.2.05
39	वही दिनांक 17.8.99	मै. रत्नावल सुब्रामनियम कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालेजी, टीएन 20889-ए	1.4.99 से 31.3.02, 1.4.02 से 31.3.05
40	वही दिनांक 11.11.95	मै. इंडिया पिस्टन्स रैपको लि. त्रिरुवल्लूर, टीएन/4924	1.4.96 से 31.3.99, 1.4.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 31.3.01, 1.4.01 से 31.3.04
41	वही दिनांक 3.3.00	मै. पिल्लर इन्डक्शन (इंडिया) प्रा. लि. तथा एक फैक्ट्री तथा एक कार्यालय , टीएन/19365	1.2.98 से 23.6.00, 24.6.00 से 31.1.01, 1.2.01 से 31.1.04
42	वही दिनांक 19.5.99	मै. इन्टरनेशनल फलोवर्स एंड फैगन्सिज (इंडिया) लि. तथा 6 शाखाएँ, टीएन/3133	1.7.99 से 30.6.02, 1.7.02 से 30.6.05
43	वही दिनांक 10.8.99	मै. साउथरण आलाए फाउन्ड्रीज प्रा. लि. , टीएन/4260	1.7.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 30.6.00, 1.7.00 से 30.6.03
44	वही दिनांक 19.3.99	मै. सेमसंस रबड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., टीएन/ 10179	1.7.01 से 30.6.03
45	वही दिनांक 22.9.99	मै. कोन एल्लेवेटर्स (इंडिया) लि. तथा 23 शाखाएँ , टीएन/19848	24.6.00 से 31.10.00, 1.11.00 से 31.10.03
46	वही दिनांक 31.11.94	मै. कम्प्यूटर ग्राफिक्स लि. तथा 9 शाखाएँ, टीएन/22506	1.10.95 से 30.9.98, 1.10.98 से 23.6.00, 24.6.00 से 30.9.00, 1.10.00 से 30.9.03
47	वही दिनांक 15.5.99	मै. दि कुम्बाकोनम मिल्क प्रोडसर्स कोप सोसाइटी लि. , टीएन 6939	1.3.01 से 29.2.04

48	वही दिनांक 28.5.92	मै. श्री रामाकृष्णा मिल्स प्रा लि सेलमा तथा शाखा, टीएन/ 2544	1.7.94 से 30.6.97, 1.7.97 से 30.6.00, 1.7.00 से 28.2.01
49	वही दिनांक 2.11.95	मै. इन्ट्राड आटो केम्पोनन्टल ,टीएन/ 22705	1.10.95 से 30.6.98, 1.10.98 से 23.6.00, 24.6.00 से 30.6.01, 1.10.00 से 30.6.03
50	वही दिनांक 9.2.01	मै. तमिल नाडु न्यू प्रिंट एंड पेपर्स लि., टीएन/22238	1.12.00 से 30.03
51	वही दिनांक 30.8.00	मै. बेयर इंडियन सिस्टमस लि., टीएन/16852	24.6.00 से 23.6.03
52	वही दिनांक 17.8.99	मै. एशिया टोबाको कम्पनी लि., टीएन /30136	1.11.01 से 31.10.03
53	वही दिनांक 1.11.95	मै. ट्रॉपिकल्स एग्रो सिस्टम्स (इंडिया) लि. तथा 11 शाखाएं ,टीएन/7839	1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
54	वही दिनांक 17.8.99	मै. एस.आरपी. टूल्स लि. रानीपट, टीएन/9925	1.6.01 से 31.5.04
55	वही दिनांक 13.1.00	मै. वी.संस एनर्जी सिस्टम्स प्रा. लि.,त्रिचि, टीएन/19918	1.3.01 से 29.2.04
56	वही दिनांक 30.11.00	मै. थिरुपथूर सहकारी चीनी मिल्स लि.,टीएन/11146	1.12.00 से 30.11.03
57	वही दिनांक 11.1.01	मै. रीथनोम आ टोमोबाइल्स त्रिरुनेलवली, टीएन/11417	24.6.00 से 23.6.03
58	वही दिनांक 15.11.97	मै. इडं इटाल कर्मिकल्स लि. टीएन/4637	1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
59	वही दिनांक 17.8.99	मै. कुआलक्राफ्ट इंजीनियरिंग प्रा. लि.,टीएन/30452	24.6.00 से 30.11.00, 1.12.00 से 30.11.03
60	वही दिनांक 19.3.99	मै. स्ट्रुक्चल कम्बायन्स प्रा. ,टीएन/16990	1.8.98 से 23.6.00, 24.6.00 से 31.7.01, 1.8.00 से 31.7.03

61	वही दिनांक 12.3.99	मै. मैक इंजीनियरिंग कम्पनी टीएन/ 17610	24.6.00 से 28.2.01 , 1.3.03 से 28.2.04
62	वही दिनांक 3.4.00	मै. टलब्रोस आटोमोबाइल्स लि.,टीएन 12344	24.6.00 से 30.6.00, 1.7.00 से 30.6.03
63	वही दिनांक 30.11.00	मै. एक्सलेस इंडिया लि. तथा 3 शाखाएं ,टीएन/ 18793	1.12. 00से 30.11.03
64	वही दिनांक 10.1.99	मै. क्वालिटी प्रोसिजन प्रोडक्ट्स प्रा. लि, टीएन/5646	1.2.00 से 2.6.00, 24.6.00 से 31.1.01, 1.2.01 से 31.1.04
65	वही दिनांक 9.12.91	मै. नेल्लई कोटन मिल्स लि. तिरुनेलवली ,टीएन/1035	1.9.93से 31.8.96, 1.9.96 से 30.11.98
66	वही दिनांक 26.3.99	मै. जे.के. फार्माचैक लि., तथा शाखा ,टीएन/ 32750	1.3.01 से 29.2.04
67	वही दिनांक 8.7.99	मै. सफीक समील एंड कम्पनी अम्बूर ,टीएन/ 5766	1.3.00 से 30.11.00 , (दिनांक 30.11.00 से बन्द)
68	वही दिनांक 11.3.99	मै. जोन क्रेन सिलोल (इंडिया) लि. ,टीएन/36974	24.6.00 से 31.12.00, 1.1.01 से 31.12.03
69	वही दिनांक nil	मै.माइल वाहनान ट्रान्सपोर्ट अरन्युकोटट्टाई,टीएन/9872	1.4.02 से 31.3.05
70	वही दिनांक 13.1.99	मै. एस के एम एनीमल फीड्स एंड फूड्स (इंडिया) लि. तथा 27 शाखाएं ,टीएन 17247	4.1.94 से 31.1.97, 4.1.97 से 3.1.00 , 41.00 से 3.1.03
71	वही दिनांक 19.2.01	मै. बैस्ट एंड क्रौम्पटन इंजीनियरिंग लि., टीएन/849-ए	24.6.00 से 30.4.01, 1.5.01 से 30.4.04
72	वही दिनांक 3.8.93	मै. प्राचिडी सिपिनर्स प्रा. लि. टीएन/10247	1.12.93 से 30.11.96, 1.12.96 से 30.11.99, 1.12.99 से 30.11.02
73	वही दिनांक 30.8.00	मै. दि कोन्टीनेन्टल माचिस कम्पनी अरन्युकोटट्टाई, टीएन/37882	24.6.00से 31.3.02, 14.02 से 31.3.05
74	2/1959/02/Exam/89/ P.T. दिनांक 30.11.01	मै. पालनी अण्डावर मिल्स लि. ,टीएन/ 49	26.12.99 से 25.12.02, 26.12.02 से 5.12.05

75	वही दिनांक 29.8.01	मै. एस आई सी जी आई एल लि. चैन्नई, टीएन/878	24.6.03 से 23.6.06
76	वही दिनांक 3.4.00	मै. ल्यके।स टी वी एस लि. (तथा दो शाखाएँ चैन्नई, टीएन/ 4045)	24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
77	वही दिनांक 19.3.99	मै. टी आई मिल्लर, टीएन/4818	24.6.00 से 31.10.00, 1.11.00 से 31.10.03
78	वही दिनांक 24.11.95	मै. ब्रिटारिया इन्डस्ट्रीज लि. ,टीएन/4843	1.4.96 से 31.3.99, 1.4.99 से 3.6.00, 24.6.00 से 31.3.01, 1.4.01 से 1.3.04
79	वही दिनांक 19.3.99	मै. बीमा मैनुफैक्चर्स प्रा. लि. तथा एक शाखा, टीएन/ 5230	1.4.00 से 23.6.00, 24.6.00 से 31.3.01
80	वही दिनांक 19.5.99	मै. राने ब्रेक लाईनज लि. ,टीएन/5932	24.6.00 से 30.6.01, 1.7.01 से 30.6.04
81	वही दिनांक 4.9.01	मै. ए-बोण्ड स्टैंडर्ड्स प्रा. लि. ,टीएन/6954	24.6.03 से 23.6.06
82	वही दिनांक 4.9.01	मै. ए-बोण्ड स्टैंडर्ड्स प्रा. लि. ,टीएन/6954-ए	24.6.03 से 23.6.06
83	वही दिनांक 7.5.02	मै. चैमप्लास सनमार लि., टीएन/6236	24.6.03 से 23.6.01
84	वही दिनांक 24.2.92	मै. दि ईमको के सी पी लि. टीएन/7383	1.3.93 से 29.2.96, 1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
85	वही दिनांक मै. 4.9.01	मै. विजय होम अपलाएन्सिस लि. तथा 11 शाखाएँ टीएन/7808	24.3.02 से 23.6.06
86	वही दिनांक 4.9.01	मै. एम एम जी (इंडिया) प्रा. लि. टीएन/10510	24.6.03 से 23.6.06
87	वही दिनांक 19.2.01	मै. लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि., टीएन/12490	24.6.00 से 23.6.03

88	वही दिनांक 19.3.99	मै. तोसनीवाल हाइवाक प्रा. लि. ,टीएन/16239	24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
89	वही दिनांक 31.1.00	मै. विद्युत अगनी सेल्स एंड सर्विसस प्रा. लि. ,टीएन/17168	1.2.01 से 31.1.04
90	वही दिनांक 28.2.98	मै. एल्जी टायर एंड ट्रिक लि., कोयम्बटूर ,टीएन/21256	1.10.99 से 30.9.02, 1.10.02 से 30.9.05
91	वही दिनांक 3.4.93	मै. बन्नारिया मान शुगर्स लि. तथा मुख्य कार्यालय ,टीएन/21773	1.3.93 से 29.2.96, 1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 28.2.01
92	वही दिनांक 24.9.01	मै. इनोक्स एयर प्रोडक्ट्स लि., टीएन/22010	24.6.03 से 23.6.06
93	वही दिनांक 29.8.01	मै. एस बी आई स्टाफ कॉपरेटिव सोसाइटी लि., टीएन/22052	24.6.03 से 23.6.06
94	वही दिनांक 4.9.01	मै इंटरनेशनल डिवेलपमेंट एंड इंजीनियरिंग एसोसिएटस लि. तथा 2 शाखाएं, टीएन/22560	24.6.03 से 23.6.06
95	वही दिनांक 4.9.01	मै. एम ई ए एस आई मैट्रिक हायर सैकन्डरी स्कूल ,टीएन/23002	24.6.03 से 23.6.06
96	वही दिनांक 4.9.01	मै. अर्जुन एसोसिएटस प्रा. लि.,तथा 9 शाखाएं ,टीएन/23086	24.6.03 से 23.6.06
97	वही दिनांक 2.8.02	मै. विजय ट्रान्सपोर्टर्स टीएन/23155	1.3.03 से 28.2.06
98	वही दिनांक 4.9.01	मै. फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स ,इंडिया प्रा. लि., टीएन/23377	24.6.03 से 23.6.06
99	वही दिनांक 12.3.99	मै. बिगनेश वरा इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि., टीएन/25061	1.12.99 से 30.11.02, 1.12.02 से 30.11.05
100	वही दिनांक 20.5.99	मै. इंडियाड इंजीनियर्स प्रा. लि. ,टीएन/16117	1.3.01 से 29.2.04
101	वही दिनांक 29.8.01	मै. कालफोर्निया आफर वेयर क. लि.,टीएन/35508	1.2.03 से 31.1.06

102	वही दिनांक 29.8.01	मै. शूटेक इन्डस्ट्रीज ,टीएन/35563	24.6.03 से 23.6.06
103	वही दिनांक 7.5.02	मै. आर पी जी सेलूलर सर्विसस लि.,टीएन/35676	24.6.03 से 23.6.06
104	वही दिनांक 4.9.01	मै. भारती मोबाईल लि. ,टीएन/35745	24.6.03 से 23.6.06
105	वही दिनांक 24.9.01	मै. प्रिमियर एयरफ्रेट लि., टीएन/36337	24.6.03 से 23.6.06
106	वही दिनांक 7.5.02	मै. एन ईआर ए (इंडिया) लि. तथा एक शाखा ,टीएन/36411	24.6.03 से 23.6.06
107	वही दिनांक 4.9.01	मै. नेशनल ट्रस्ट हाउसिंग फाईनेन्स लि. तथा 3 शाखाएं ,टीएन/36638	24.6.03 से 23.6.06
108	वही दिनांक 28.8.01	मै. पार्क लोयड इंटरनेशनल प्रा. लि. ,टीएन/36922	24.6.03 से 23.6.06
109	वही दिनांक 10.9.02	मै. सेन्ट गोबेन ग्लास ,इंडिया लि. ,टीएन/40002	1.9.01 से 31.8.03
110	वही दिनांक 21.9.01	मै. फ्लारेम शूज ,इंडिया प्रा. लि. ,टीएन/ 40070	24.6.03 से 23.6.06
111	वही दिनांक 7.5.02	मै. यूनिको लैडर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.,टीएन/40071	24.6.03 से 23.6.06
112	वही दिनांक 8.11.00	मै. स्थाविग स्टैटर ,इंडिया प्रा. लि.,टीएन/ 40984	24.6.00 से 31.10.00, 1.11.00 से 31.10.03
113	वही दिनांक 4.9.01	मै. बियर्डसेल लि.,चैन्नई तथा 9 शाखाएं,टीएन/129-ए	24.6.03 से 23.6.06
114	वही दिनांक 7.5.02	मै. स्विफ्ट शीपिंग मद्रास प्रा. लि. टीएन/3189	24.6.03 से 23.6.06
115	4.9.01	मै. इंटरफ्रेट सर्विसज प्रा. लि. तथा 7 शाखाएं ,टीएन/23443	24.6.03 से 23.6.06
116	वही दिनांक 30.11.00	मै. टी आई डायमंड चेन लि., टीएन/2975	1.12.00 से 30.11.03

117	वही दिनांक 31.8.98	मै. इरिस डवलपमेंट इंजीनियरिंग ऐपलीकेशन लि. टीएन/33039	1.10.00 से 30.9.03
118	2/1959/DL/Exam/89/ PT-I दिनांक 2.7.93	मै. टयूब प्रोडक्ट्स आफ इंडिया चैन्नई, टीएन/1089	1.1.95 से 31.12.98, 1.1.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 31.12.00 1.1.01 से 31.12.03
119	वही दिनांक 13.10.02	मै. बी टी पी इंडिया लि. चैन्नई तथा मुख्य कार्यालय और फैक्ट्री टीएन/30329	24.6.00 से 23.6.03
120	वही दिनांक 9.10.02	मै. फेन्स इंजीनियरिंग प्रा. लि., चैन्नई, टीएन/ 23847	24.6.00 से 23.6.03
121	वही दिनांक 25.3.94	मै. किवि कानावियर्स चैन्नई टीएन/19263	1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.4.04
122	वही दिनांक 7.4.99	मै. वी आर फाउन्ड्री कोयम्बटूर, टीएन/ 11075	1.1.00 से 31.12.02, 1.1.03 से 31.12.05
123	वही दिनांक 1.4.99	मै. कालेज, 74 फिल्म चेम्बर्स बिल्डिंग 604, अन्ना सलाई चैन्नई टीएन/11323	1.12.99 से 30.11.02
124	वही दिनांक 19.2.01	मै. अम्बातूर कलोथिंग्स लि., तथा शाखाएं, टीएन/16772	24.6.00 से 30.11.00, 1.12.00 से 30.11.03
125	वही दिनांक 23.11.95	मै. टी आई मेटलफॉर्मिंग तिरुवैल्लूर, टीएन/16743	1.3.95 से 28.2.98, 1.3.98 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
126	वही दिनांक 3.4.00	मै. कोनक्रीट प्रोडक्ट्स एंड कन्स ट्रक्सन कम्पनी, टीएन/9726	1.4.99 से 23.6.0, 24.6.00 से 31.3.01, 1.4.01 से 31.3.04
127	वही दिनांक 11.3.99	मै. अब्रुफ प्रा. लि. गुम्मीडी पोण्डी -601201, टीएन/35829	24.6.00 से 31.10.00, 1.11.00 से 1.10.03

128	2/1959/EDLI/89/ PT.I दिनांक 9.2.00	मै. पट्टेज एंड कारपेटरी वर्क्स ,टीएन/10343	1.4.02 से 31.3.05
129	वही दिनांक 21.9.01	मै. फाईसव कोयल के सी पी लि., टी एन/35772	24.6.00 से 23.6.03, 24.6.03 से 23.6.06
130	वही दिनांक 2.8.02	मै. केम्पास शिपिंग एंड ट्रेडिंग प्रा. लि. तथा 5 शाखाएं ,टीएन/36819	24.6.00 से 23.6.03, 24.6.03 से 23.6.06
131	वही दिनांक 18.2.03	मै. पी पी एन पावर जेनरेटिंग क. लि., टीएन/36041	24.6.00 से 23.6.03, 24.6.00 से 23.6.06
132	वही दिनांक 28.8.98	मै. वल्ली टैक्सटाइल मिल्स लि., टीएन/20015	1.1.00 से 31.10.00
133	वही दिनांक 19.5.99	मै. वल्लूर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., टीएन/4194	25.8.00 से 24.8.03
134	वही दिनांक 7.4.99	मै. वियजयराजा एंड कम्पनी, टीएन/11467	1.3.00 से 28.2.03, 1.3.03 से 28.2.06
135	वही दिनांक 14.7.99	मै. निलग्रीज सेन्ट्रल सहकारी बैंक लि., टीएन/4108	11.2.00 से 10.2.03, 11.2.03 से 10.2.06
136	वही दिनांक 26.3.99	मै. श्री वेक्टेस्बारा कम्पनी ,टीएन/7047	1.3.00 से 28.2.03, 1.3.03 से 28.2.06
137	वही दिनांक 16.2.99	मै. साउथरन टूल्स सर्विसज ,टीएन/11048	1.8.01 से 31.7.04
138	वही दिनांक 11.8.99	मै. इ आई एच ऐसासियेटेड होटल्स लि., टीएन/26101	1.10.99 से 30.9.02, 1.10.02 से 30.9.05
139	वही दिनांक 12.3.99	मै. सम्पूर्ण श्री स्निपिंग मिल्स प्रा.लि., टीएन/18774	1.2.00 से 31.1.03, 1.2.03 से 31.1.06
140	वही दिनांक 2.8.02	मै. दि मास्टर रिकार्डिंग क. लि. ,टीएन/ 22568	24.6.00 से 23.6.03
141	वही दिनांक 23.2.01	मै. यूनिमैक इंडस्ट्रीज लि., टीएन/17274	1.3.03 से 28.2.06
142	वही दिनांक 1.2.94	सेसासयी पेपर एंड बोर्डर लि., टीएन/4028 एंड 4028-ए	24.12.95 से 23.12.98, 24.12.98 से 23.12.01, 24.12.01 से 23.12.04
143	वही दिनांक 16.3.99	मै. होटल सीटी टावर ,टीएन/21541	1.3.00 से 28.2.03, 1.3.03 से 28.2.06



144	वही दिनांक 7.4.99	मै. अर्वी होटलस ,टीएन/21501	1.6.00 से 31.5.03, 1.6.03 से 31.5.06
145	वही दिनांक 28.4.98	मै. इंडोसेल, टीएन/10896	1.3.97 से 29.2.00, 1.3.00 से 28.2.03, 1.3.03 से 28.2.06
146	वही दिनांक 23.6.93	मै. एलैक्ट्रोन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.,टीएन/10531	1.3.95 से 28.2.98, 1.3.98 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01 1.3.01 से 29.2.04
147	वही दिनांक 1.1.99	मै. प्रोडोरायडट अन्टीक्रासिब्स प्रा. लि., टीएन/4231	1.3.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
148	वही दिनांक 7.5.02	मै. टेबलटैस, इंडिया लि. तथा शाखाएं, टीएन/3829	मै. 24.6.03 से 23.6.06
149	वही दिनांक 4.9.01	मै. डायना वर्ल्ड ट्रेवल्स प्रा. लि.,टीएन/26794	24.6.03 से 23.6.06
150	वही दिनांक 2.8.02	मै. आस्ट्रेक प्रोडक्ट्स प्रा. लि., तथा शाखा, टीएन/49010	1.5.03 से 30.4.06
151	वही दिनांक 4.9.01	मै. जी.आर.यन्शामाली गई ज्वैलरी, टीएन/11798	24.6.03 से 23.6.06
152	वही दिनांक 21.9.01	मै. पोस्टोलिया इन्टर पार्क प्रा. लि. तथा एक शाखा, टीएन/11252	24.6.03 से 23.6.06
153	वही दिनांक 4.9.01	मै. एशिया तम्बाकू क.लि. ,टीएन/10161	24.6.03 से 23.6.06
154	वही दिनांक 4.9.01	मै. लक्ष्मी कार्गो क. लि. तथा शाखाएं, टीएन/ 16916	24.6.03 से 23.6.06
155	वही दिनांक 29.8.01	मै. यूनाईटेड इंडिया शू कार्पोरेशन प्रा लि., टीएन/9504-ए	24.6.03 से 23.6.06
156	वही दिनांक 18.2.03	मै. न्यू होरिजन शूगर मिल्स लि. ,टीएन 24	24.6.03 से 23.6.06
157	वही दिनांक 29.8.01	मै. सुन्दरम मोटर्स, टीएन/1135	24.6.03 से 23.6.06
158	वही दिनांक 29.8.01	मै. अमृताजंजन लि. ,टीएन 853	24.6.03 से 23.6.06

159	वही दिनांक 7.4.99	मै. के.जी. हास्पिटल ,टीएन/10901	1.2.00 से 31.1.03, 1.2.03 से 31.1.06
160	वही दिनांक 23.11.95	मै. आई सी एफ सिलवर जुबली मेट्रीकुलेशन हायर सैकन्ड्री स्कूल ,टीएन/14792	1.3.93 से 29.2.96, 1.3.96 से 28.2.99, 1.3.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 31.8.00, 1.9.00 से 31.8.03
161	वही दिनांक 23.6.99	मै. एस .डी. बी.सिसको ,इंडिया लि. तथा 32 शाखाएं ,टीएन/7919	24.6.00 से 23.6.03, 24.6.03 से 23.6.06
162	वही दिनांक 4.9.01	मै. दि जोर्ज टाउन को.ओ. स्टोर्स लि., टीएन/23275	24.6.03 से 23.6.06
163	वही दिनांक 21.9.01	मै. प्लास्टीलायन ,टीएन/23398	24.6.03 से 23.6.06
164	वही दिनांक 19.3.99	मै. राजश्री स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि. ,टीएन 17505	1.2.00 से 31.1.03 , 1.2.03 से 31.1.06
165	वही दिनांक 4.9.01	मै. एफ एफ ई मिनरल इंडिया लि., टीएन/36280	24.6.03 से 23.6.06
166	वही दिनांक 7.5.02	मै. अमरिकन मेगाट्रेन्ड्स इंडिया प्रा. लि. ,टीएन/36623	24.6.03 से 23.6.06
167	वही दिनांक 2.8.02	मै. भार्तियार सहकारी स्टोर्स लि., टीएन/ 29851	1.2.03 से 31.1.06
168	वही दिनांक 29.8.01	मै. के 7 कम्प्यूटिंग प्रा. लि.,टीएन/ 36220	1.3.03 से 28.2.06
169	वही दिनांक 7.5.02	मै. विनप्लैक्स इंडिया प्रा. लि. तथा 3 शाखाएं,टीएन/36153	24.6.03 से 23.6.06
170	वही दिनांक 21.9.01	मै. साउथन एग्रीफ्यूरेन इन्डस्ट्रीज लि., टीएन/ 8665	24.6.03 से 23.6.06
171	वही दिनांक 2.8.02	मै. गोटियर इंडिया लि., टीएन/40367	24.6.03 से 23.6.06
172	वही दिनांक 21.9.01	मै दि टी एन. सर्कल पोस्टल सहकारी बैंक लि., टीएन/4132	24.6.03 से 23.6.06
173	वही दिनांक 7.5.02	मै. साइन्टिफिक पब्लिशिंग सर्विसस प्रा. लि.,टीएन/39246	24.6.03 से 23.6.06

174	वही दिनांक 21.9.01	मै. मुखाप्पन मेनेजमेन्ट सर्विसस लि., टीएन/8293	24.6.03 से 23.6.06
175	वही दिनांक 10.8.99	मै. साउथर्न स्ट्रक्चर्स लि., टीएन/2875	24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
176	वही दिनांक 10.1.99	मै. पर्स मैट्रीकुलेशन हायर से. स्कूल, टीएन/21638	1.2.00 से 31.1.03, 1.2.03 से 31.1.06
177	वही दिनांक 17.11.99	मै. सपथाग्रिरी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि., टीएन/21312	1.3.02 से 28.2.03
178	वही दिनांक 11.3.99	मै. उषा फायर सेफटी इक्विपमेन्ट्स प्रा. लि. तता 5 शाखाए, टीएन/31615	1.9.99 से 23.6.00, 24.6.00 से 31.8.00, 1.9.00 से 31.8.03
179	वही दिनांक 20.5.99	मै. इंडिया जापान लायटिंग लि., टीएन/39692	24.6.00 से 31.12.00, 1.1.01 से 31.12.03
180	वही दिनांक 7.5.02	मै. इंडियन एडीटिवस लि., टीएन/36423	24.6.03 से 23.6.06
181	वही दिनांक 4.9.01	मै. हार्टीकोन्ट्रोक्टस, टीएन/22224	24.6.03 से 23.6.06
182	वही दिनांक 4.9.01	मै. एग्रीघास्टिकल्चरल कन्सलटेन्ट्स टीएन/22668	24.6.03 से 23.6.06
183	वही दिनांक 4.9.01	मै. ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स तथा 3 शाखाए, टीएन/3338	24.6.03 से 23.6.06
184	वही दिनांक 4.9.01	मै. थन्नामालिगई सिलवर आर्टवेयर्स, टीएन/ 11798-ए	24.6.03 से 23.6.06
185	वही दिनांक 29.8.01	मै. फुल्लर इंडिया लि. तथा शाखाए, टीएन /19248	24.6.03 से 23.6.06
186	वही दिनांक 4.9.01	मै. ए वी ए चारिटिस, टीएन/12467	24.6.03 से 23.6.06
187	वही दिनांक 4.9.01	मै. जी आर. थन्नामालिगई लि. ,टीएन/ 11798-सी	24.6.03 से 23.6.06
188	वही दिनांक 7.5.02	मै. पोण्डीचेरी कलारेट लि. ,टीएन/पीसी/302	24.6.03 से 23.6.06
189	वही दिनांक 2.8.02	मै. डीहलर इंडिया प्रा. लि. ,टीएन/36641	24.6.03 से 23.6.06

190	वही दिनांक 21.9.01	मै. सी एस आई कल्यानी जनरल हास्पिटल ,टीएन/7535	24.6.03 से 23.6.06
191	वही दिनांक 2.8.02	मै. इफूलजेन्ट टेक्नोलोजी प्रा. लि., टीएन 39819	1.3.03 से 28.2.06
192	वही दिनांक 21.9.01	मै. क्यू मैक्स टेस्ट इक्यूपमेंट्स लि. ,टीएन/36753	24.6.03 से 23.6.06
193	वही दिनांक 21.9.01	मै. दि रेलवे कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी लि. तथा 4 शाखाए,टीएन/4153	24.6.03 से 23.6.06
194	वही दिनांक 2.8.02	मै. मैरिना शूज लि.,टीएन/48504	1.6.03 से 31.5.06
195	वही दिनांक 21.9.01	मै. क्यू मैक्स टेस्ट टेक्नालाजिस प्रा. लि. तथा शाखाए ,टीएन/36753-ए	24.6.03 से 23.6.06
196	वही दिनांक 4.9.01	मै. महालक्ष्मी इन्टरप्राइजेस ,टीएन/26851	24.6.03 से 23.6.06
197	वही दिनांक 4.9.01	मै. सूपरा मार्किटिंग एसोसिएट्स तथा 11 शाखाए ,टीएन/30135	24.6.03 से 23.6.06
198	वही दिनांक 7.5.02	मै. आई बी पी क. लि. तथा शाखाए,टीएन/11026	24.6.03 से 23.6.06
199	वही दिनांक 4.9.01	मै. अशोक लेलेन्ड लि.,टीएन/44	24.6.03 से 23.6.06
200	वही दिनांक 21.9.01	मै. बाल विद्या मंदिर हायर से. स्कूल ,टीएन/23214	24.6.03 से 23.6.06
201	वही दिनांक 4.9.01	मै. दि तामिलनाडु हैण्डिक्राफ्ट्स डवलपमेंट कोर्पोरेशन लि. तथा 23 शाखाए ,टीएन/9055	24.6.03 से 23.6.06
202	वही दिनांक 19.2.01	मै. मद्रास रेस कल्ब तथा एक शाखाए ,टीएन/3117	1.7.02 से 30.6.05
203	वही दिनांक 15.5.99	मै. दि रामाराजु सर्जिकल काटन मिल्स टीएन/183	1.3.99 से 28.2.02, 1.3.02 से 28.2.05
204	वही दिनांक 31.1.00	मै. कास्टवैल अम्बातुर इन्डस्ट्रीयल स्टेट.टीएन/17665	24.6.00 से 28.2.01, 1.3.01 से 29.2.04
205	वही दिनांक 7.5.02	मै. यूनाटिड इंडिया रौलर फ्लोर मिल्स,टीएन/3811	24.6.03 से 23.6.06

206	वही दिनांक 28.2.01	मै. चोना फायनेशियल सर्विसस प्रा. लि. तथा 9 शाखाएं, टीएन/48538	24.6.03 से 23.6.06
207	वही दिनांक 7.5.02	मै. प्रकाश ट्रेडिंग क., टीएन/22242	24.6.03 से 23.6.06
208	वही दिनांक 28.8.01	मै. फोस्टर व्हीटर इंडिया प्रा. लि., टीएन/40455	24.6.03 से 23.6.06
209	वही दिनांक 7.5.02	मै. मैचवैल इंटरप्रायजिस, टीएन/40218	24.6.03 से 23.6.06
210	वही दिनांक 28.8.01	मै. प्रोकार्गो इंडिया प्रा लि., टीएन 36180	24.6.03 से 23.6.06
211	वही दिनांक 7.5.02	मै. 21 वी सैन्चुरी पेस्ट कंट्रोल सर्विसस प्रा. लि., टीएन/36735	24.6.03 से 23.6.06
212	वही दिनांक 18.2.03	मै. क्वालिटी इन अरुना, टीएन/36215	24.6.03 से 23.6.06
213	वही दिनांक 18.2.03	मै. खादी ग्रामोद्योग भवन तथा 2 शाखाएं, टीएन/3218	24.6.03 से 23.6.06
214	वही दिनांक 19.5.99	मै. गोपाल मेटल कन्टेनर्स प्रा. लि. तथा 1 शाखा, टीएन/6943	24.6.03 से 23.6.06
215	वही दिनांक 21.9.01	मै. दि सिंदुरी सैट्रल होटल, टीएन/23342-ए	24.6.03 से 23.6.06
216	वही दिनांक 2.8.02	मै. क्रिसिन्फो इंडिया प्रा. लि., टीएन/48399	24.6.03 से 23.6.06
217	वही दिनांक 7.5.02	मै. ए.बी.सेल्स कार्पोरेशन, टीएन/26181	24.6.03 से 23.6.06
218	वही दिनांक 7.5.02	मै. दुरर इंडिया प्रा. लि. तथा 40 शाखाएं, टीएन/36852	24.6.03 से 23.6.06
219	वही दिनांक 7.5.02	मै. सिकाल सी डब्ल्यू टी डीस्ट्री पार्कस लि. तथा फैक्ट्री औरी पंजीकृत कार्यालय, टीएन/36448	24.6.03 से 23.6.06

### तमिलनाडु Ext.

क्र.स.	अधिसूचना और दिनांक	स्थापना का नाम एवं कोड न.	छूट की प्रभावी	के.भ.नि.फा.न.
1.	2/1959/एकजम/89 पार्ट-1 दिनांक 4.9.01	मैसर्स लूक्स इंडिया सर्विस लि., तथा 3 शाखाए (टी एन/1141)	24.6.2003 से 23.6.2006	
2.	वही	मैसर्स वासन पब्लिकेशन प्रा.लि. (टीएन/573)	24.6.2003 से 23.6.2006	
3.	वही	मैसर्स शेक्स एंड क्रिम (टीएन/9643-ए)	24.6.2003 से 23.6.2006	
4.	वही दिनांक 7-5-02	मैसर्स दि पाण्डेचेरी कोप.अरबन बैंक लि. तथा 4 शाखाए (टी एन/306)	24.6.2003 से 23.6.2006	
5.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स वेटरी साफ्टवेयर (इंडिया)लि. (टीएन/36395)	24.6.2003 से 23.6.2006	
6.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स वी.टी.पदनामनएंड ब्रादर्स (टी एन/8459)	24.6.2003 से 23.6.2006	

7.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स अम्बाली एन्टरप्राइजेस तथा 6 शाखाए (टी एन/3184)	24.6.2003 से 23.6.2006	
8.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स टी.अबदुल बहिद टैनरिज प्रा.लि. (टी एन/10602- ए)	24.6.2003 से 23.6.2006	
9.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स बी.एस टी सर्विस स्वेशन प्रा. लि. (टीएन/1134)	24.6.2003 से 23.6.2006	
10.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स एस आर एफ लि. चेन्नई (टीएन/9927)	24.6.2003 से 23.6.2006	
11.	वही दिनांक 4.9.01	मैसर्स आदियार बैकरी प्रा.लि. तथा 12 शाखाए (टी एन/9643)	24.6.2003 से 23.6.2006	
12.	वही दिनांक 29.8.01	मैसर्स इस्टर्न क्रोमे टैनिंग कार्पोरेशन लि. (टी एन/9386)	24.6.2003 से 23.6.2006	
13.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स ऑटोमेटिक अन्सेलरी सर्विसस प्रा.लि. (टीएन/8567)	24.6.2003 से 23.6.2006	
14.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स दि आई रिसर्च फाउन्डेशन (टी एन/26576)	24.6.2003 से 23.6.2006	

15.	वही दिनांक 4.9.01	मैसर्स तामिल नाडु अर्बन फाइनेशन एंड इनफ्रेशट्रेक्चर इबलपमैट कार्पोरेशन लि. (टी एन/26503)	24.6.2003 से 23.6.2006	
16.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स नागराज एंड कम्पनी प्रा.लि. (टी एन/8457)	24.6.2003 से 23.6.2006	
17.	वही दिनांक 29.8.01	मैसर्स इंडिया गरेज तथा 5 शाखाए (टी एन/8236)	24.6.2003 से 23.6.2006	
18.	वही दिनांक 29.8.01	मैसर्स सवेरा होटल्स लि. (टी एन/6557)	24.6.2003 से 23.6.2006	
19.	वही दिनांक 19.8.01	मैसर्स फैमिना प्रोडैक्ट्स तथा 2 शाखाए (टी एन/12469)	24.6.2003 से 23.6.2006	
20.	वही दिनांक 21.9.01	मैसर्स तैजो इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रा.लि. तथा 7 शाखाए (टी एन/17299)	24.6.2003 से 23.6.2006	
21.	वही दिनांक 4.9.01	मैसर्स भाद्रवाज इन्डस्ट्रीज तथा शाखा (टी एन/16415)	24.6.2003 से 23.6.2006	
22.	वही दिनांक 18.2.03	मैसर्स सनमार वेगिंग सिस्टम लि. (टी एन/16098)	24.6.2003 से 23.6.2006	



23.	वही दिनांक 18.2.03	मैसर्स दि वलन्ट्री हेल्थ सर्विसस (टीएन/7536)	24.6.2003 से 23.6.2006	
24.	वही दिनांक 2.8-02	मैसर्स डैलटाटेक सोल्यूशन प्रा.लि. (टी एन/36401)	24.6.2003 से 23.6.2006	
25.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स सैटिफिक पब्लिसिंग सर्विसस प्रा.लि. (टी एन/48255)	24.6.2003 से 23.6.2006	
26.	वही दिनांक 2.8.02	मैसर्स ऐ जी एम प्रसिजन टूल्स प्रा.लि. तथा यूनिट (टी एन/35764)	24.6.2003 से 23.6.2006	
27.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स बीएस एंड बी. सैफटी सिस्टम इंडिया लि. (टी एन/12126)	24.6.2003 से 23.6.2006	
28.	वही दिनांक 24.8.01	मैसर्स एस ओ एस.प्रा. लि. (टी एन/21137)	24.6.2003 से 23.6.2006	
29.	वही दिनांक 18.2.03	मैसर्स मतरा प्रिन्टर्स तथा एक शाखा (टी एन/17807)	24.6.2003 से 23.6.2006	
30.	वही दिनांक 29.8.01	मैसर्स इन्टरनैशनल सर्विसस (टी एन/16445)	24.6.2003 से 23.6.2006	

31.	वही दिनांक 29.8.01	मैसर्स दि मेलापुर हिन्द पर्मानेन्ट एंड 7 शाखाए (टी एन/106653)	24.6.2003 से 23.6.2006	
32.	वही दिनांक 29-8-01	मैसर्स श्री चक्रा लि. मदुरै (टी एन/20359-ए)	24.6.2003 से 23.6.2006	
33.	वही दिनांक 29-8-01	मैसर्स टूलकैम्पो इलेक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. (टीएन/10029)	24.6.2003 से 23.6.2006	
34.	वही दिनांक 4-9-01	मैसर्स इंड बैंक मरचेट बैंकिंग सर्विसस लि. (टी एन/26084)	24.6.2003 से 23.6.2006	
35.	वही दिनांक 4-9-01	मैसर्स ब्रिलैन्ट कोटिंग प्रा.लि. तथा 3 शाखाए (टी एन/23464)	24.6.2003 से 23.6.2006	
36.	वही दिनांक 29-8-03	मैसर्स विजय हास्पिटल (टी एन/9868)	24.6.2003 से 23.6.2006	
37.	वही दिनांक 19.3.99	मैसर्स टीवी एव श्रीचक्रा लि. मोल्टिडि प्रोडैक्टस डिवीजन (टी एन/16774)	1.1.2000 से 31.12.2002 और 1.1.03 से 31.12.05	
38.	वही दिनांक 19.5.99	मैसर्स श्री बालासुब्रामनिया मिल्स (टीएन/63)	1.3.00 से 28.2.03	

39.	वही दिनांक 26.8.98	मैसर्स आटो मोल्डर्स लि. (टीएन/17273)	1.5.00 से 30.4.03 1.5.03 से 30.4.06	
40.	वही दिनांक 12.3.99	मैसर्स एक्व्यासव इंजीनियरिंग (टी एन/19230)	1.5.00 से 30.4.04 1.5.03 से 30.4.06	
41.	वही दिनांक 12-3-99			
42.	वही दिनांक 19-3-99	मैसर्स यूना मेटेड कैबस (टीएन/21394)	31.5.00 से 30.5.03 31.5.03 से 30.5.06	
43.	वही दिनांक 3.8.93	मैसर्स मोटर्स एंड सर्विसस प्रा.लि. (टीएन/12282)	1.5.00 से 30.4.03 1.5.03 से 30.4.06	
44.	वही दिनांक 8.7.99	मैसर्स मेटू पालयम कोपरेटिव स्टोर्स लि. (टीएन/16911)	1.9.93 से 30.8.96 1.9.96 से 30.8.99 1.9.99 से 30.8.02	
45.	वही दिनांक 19.2.01	मैसर्स एप्पल क्रेडिट कार्पोरेशन लि. (टीएन/23907)	1.12.00 से 30.11.03	

45.	वही दिनांक 19.2.01	मैसर्स हाई पावर ऑटोमेटिक पार्ट्स प्रा.लि. (टीएन/10788)	24.6.00 से 28.2.01 1.3.01 से 29.2.04	
46.	वही दिनांक 31.1.00	मैसर्स पाण्डीयाण कैमिकल्स लि. (टीएन/9551)	9.6.02 से 8.6.05	
47.	वही दिनांक 15.8.98	मैसर्स मद्रास स्वास्तिक इंजीनियर प्रा.लि. (टीएन/5728)	24.6.00 से 30.4.01 1.5.01 से 30.10.01	
48.	वही दिनांक 26.8.98	मैसर्स इंडिया रेडियेटर्स लि.(टीएन/1105)	1.3.99 से 28.2.00	
49.	वही दिनांक 9.1.01	मैसर्स हाइड्रोएस एंड एस इन्डस्ट्रीज लि. तथा 6 शाखाएं (टीएन/27152)	24.6.00 से 23.6.03 24.6.03 से 30.6.03	
50.	वही दिनांक 30.6.00	मैसर्स एन एल सीकर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि.(टीएन/8170)	1.1.02 से 31.12.03	
51.	वही दिनांक 31.1.96	मैसर्स वर्थ इन्डस्ट्रीज वल्लूर (टीएन/4677)	27.6.97 से 26.6.00 27.6.00 से 26.6.03	

52.	वही दिनांक 3.4.00	मैसर्स साउथर्न ग्रुप इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. (टीएन/9774)	1.3.02 से 3.6.03 24.6.03 से 23.6.06	
53.	वही दिनांक 9.2.00	मैसर्स शोलिघुर टैक्सटाइल्स लि. (टीएन/9294)	1.1.00 से 31.12.02 1.1.03 से 31.12.06	
54.	वही दिनांक 7.3.94	मैसर्स बन्नारीमाम्पन शूमर्स लि. (डीस्टेलरी डिविजन) (टीएन/16349)	1.3.93 से 29.2.96 1.3.96 से 28.2.99 1.3.99 स 28.2.02 1.3.02 से 28.2.05	
55.	वही दिनांक 22.11.00	मैसर्स कन्याकुमारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. तथा 16 शाखाए (टीएन/4144) मैसर्स पौनियर स्पिनर्स (टीएन/7707)	24.6.00 से 23.6.03	
56.	वही दिनांक 13.1.99	मै. पौनियर स्पिनर्स टी एन/7707	1.1.00 से 31.12.02 1.3.02 स 31.12.05	

57.	वही दिनांक 1.6.98	मैसर्स कम्प्लैट बूजनस सौलूशनस (इंडिया) लि. (टीएन/30027)	1.9.99 से 31.8.02 1.9.02 से 31.8.05	
58.	वही दिनांक 31.1.00	मैसर्स प्राइम टैक्सटाइल्स लि. (टीएन46)	31.3.02 से 30.3.05	
59.	वही दिनांक 8.11.00	मैसर्स टुटिकारिन थर्मल पावर स्टेशन इन्डस्ट्रियल कोप. सौसाइटी लि. (टीएन/24064)	1.2.99 से 30.4.99 estt closed w.e.f. 1.5.99	
60.	वही दिनांक 8.11.00	मैसर्स अरन्यूकोटटार्ड श्री जयकृष्णा स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. (टीएन/41728)	24.6.00 से 31.8.02 1.9.02 से 28.2.05	
61.	वही दिनांक 19.2.01	मैसर्स दि निलग्रीस कोप. मार्किटिंग सौसाइटी लि. (टीएन/2686)	24.6.00 से 23.6.03 24.6.03 से 23.6.06	
62.	वही दिनांक 21.8.01	मैसर्स ऐ. बोण्ड स्ट्रेन्डर्स (टीएन/6954-बी)	24.6.03 से 23.6.06	
63.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स एक्सिल लि. (टीएन/31171)	24.6.03 से 23.6.06	

64.	वही दिनांक 17.2.96	मैसर्स अमालगाम्मेसनस रैपको लि. तथा एक शाखा (टीएन/7392)	1.4.96 से 28.2.97 1.3.99 से 23.6.00 24.6.00से 31.3.01 1.4.01 से 31.3.04
65.	वही दिनांक 4.9.01	मैसर्स टी.अबदुल वहिद एंड कम्पनी (टीएन/2215-बी)	24.6.03 से 23.6.06
66.	वही दिनांक 4.9.01	मैसर्स टी अबदुल वहिद एंड कम्पनी (टीएन/2215-ए)	24.6.03 से 23.6.06
67.	वही दिनांक 4.9.01	मैसर्स स्कन्डीया सेल्स एंड सर्विसस प्रा.लि. (टीएन/31805)	24.6.03 से 23.6.06
68.	वही दिनांक 4.9.01	मैसर्स थन्गामालिगइएंड कम्पनी (टीएन/16015)	24.6.03 से 23.6.06
69.	वही दिनांक 4.9.01	मैसर्स जर्मन लैप्रोसी रिलिफ एसोसिएसन (टीएन/17592)	24.6.03 से 23.6.06
70.	वही दिनांक 7.5.02	मैसर्स ए.एस. ट्रासपोर्ट प्रा.लि. तथा 36 शाखाए (टी एन/1607)	24.6.03 से 23.6.06

71.	वही दिनांक 31.1.00	मैसर्स एक्सप्रेस पब्लिकेशनस (मदुरै) लि.(टी एन/8486)	1.3.99 से 28.2.02 1.3.02 से 28.2.05	
72.	वही दिनांक 14.1.00	मैसर्स एबी आई स्वाटैच (इंडिया) लि. (टीएन/31573)	1.10.99 से 30.9.02 1.10.02 से 30.9.05	




अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों के एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम से देगा।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारीकी मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में सदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारीको विधि वारिस / नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी

- संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसको स्थापना पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाय तो रद्द किया जा सकता है ।
  10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यंगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है ।
  11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तदायित्व नियोजक पर हो गा ।
  12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दातो / विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं.2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/पार्ट-1

(  )  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -1

**क्षेत्रीय कार्यालय(उडीसा)**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम 'पंचदीप भवन, जनपथ, यूनिट-९, भुवनेश्वर-२२

सं० 44-बी-34/12/18/82- हित०

दिनांक 22 जनवरी 2004

यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10-क के अंतर्गत जिला बालेश्वर में बालेश्वर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

- |    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 1. | <u>विनियम 10-क(1)(क) के अंतर्गत</u><br>उप जिलाधिकारी, बालेश्वर   | अध्यक्ष             |
| 2. | <u>विनियम 10-क(1)(ख) के अंतर्गत</u><br>जिला श्रम अधिकारी, बालेश्वर   | सदस्य               |
| 3. | <u>विनियम 10-क(1)(ग) के अंतर्गत</u><br>प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी<br>क० रा० बी० औषधालय, बालेश्वर  | सदस्य               |
| 4. | <u>विनियम 10-क(1)(घ) के अंतर्गत</u><br>नियोजक प्रतिनिधि<br>(i) श्री बिरंची नारायण मल्लिक<br>प्रबंधक (वित्त), ओरिफ्लाश लि०, बालेश्वर<br>(ii) श्री नकुल कुमार<br>प्रबंधक, कुमार सीरामिक (प्रा०) लि०,<br>गणेश्वरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, बालेश्वर | सदस्य<br>सदस्य      |
| 5. | <u>विनियम 10-क(1)(ड) के अंतर्गत</u><br>कर्मचारी प्रतिनिधि<br>(i) श्री स्वरूप कुमार राणा<br>ईस्टर्न सिलेंडर (प्रा०) लि०, बालेश्वर<br>(ii) श्री मनोरंजन महान्ति<br>मेसर्स केबुल्स इंडिया (प्रा०) लि०,<br>बी-5, औद्योगिक क्षेत्र, बालेश्वर      | सदस्य<br>सदस्य      |
| 6. | <u>विनियम 10-क(1)(च) के अंतर्गत</u><br>प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क० रा० बी० निगम, बालेश्वर   | सदस्य एवं पदेन सचिव |

रनी. आर. नाइया  
( सी० आर० नाइया )  
क्षेत्रीय निदेशक

सं० 44-वी-34/12/29/89- हित०

यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियमावली 1950 के विनियम 10-क के अंतर्गत जिला सुंदरगढ़ में कलुंगा क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | <u>विनियम 10-क(1)(क) के अंतर्गत</u><br>उप जिलाधिकारी, कलुंगा  | अध्यक्ष               |
| 2. | <u>विनियम 10-क(1)(ख) के अंतर्गत</u><br>जिला श्रम अधिकारी, कलुंगा  | सदस्य                 |
| 3. | <u>विनियम 10-क(1)(ग) के अंतर्गत</u><br>प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी<br>क० रा० बी० औषधालय, कलुंगा   | सदस्य                 |
| 4. | <u>विनियम 10-क(1)(घ) के अंतर्गत</u><br>नियोजक प्रतिनिधि   |                       |
|    | (i) श्री पी० के० शर्मा, परियोजना समन्वयक<br>मेसर्स चेरिओट सीमेंट को० लि०, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, कलुंगा   | सदस्य                 |
|    | (ii) श्री हरमोहन महापात्र<br>जुनियर ऐक्जीक्यूटिव (कॉमर्शियल), मेसर्स आई एफ जी एल,<br>रिफ्रेक्टोरिज लि०, सेक्टर-बी, कलुंगा इन्डस्ट्रियल इस्टेट, कलुंगा | सदस्य                 |
| 5. | <u>विनियम 10-क(1)(ङ) के अंतर्गत</u><br>कर्मचारी प्रतिनिधि   |                       |
|    | (i) श्री जहांगीर अली, सचिव, सीडू,<br>मार्फत इन्डस्ट्रियल मजदूर संघ, सुन्दरगढ़ राज्य समिति,<br>क्वार्टर नं० ए-49, सेक्टर-18                            | सदस्य                 |
|    | (ii) श्री एस० एस० साहू, शाखा सचिव, चेरिओट सीमेंट को० लि०, सुन्दरगढ़,<br>श्रमिक संघ, डी-81, सेक्टर - 18, राउरकेला - 3                                  | सदस्य                 |
| 6. | <u>विनियम 10-क(1)(च) के अंतर्गत</u><br>प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क० रा० बी० निगम, राउरकेला  | सदस्य एवं प्रदेन सचिव |

सी० 352-नाइया  
(सी० आर० नाइया)  
क्षेत्रीय निदेशक

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया  
नई दिल्ली-110002, दिनांक 23 जनवरी 2004

नांक: 23 जनवरी 2004  
हैं।

न013-सी.ए./परीक्षा/एम./2004: चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार दि काउंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय और फाइनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

वैसे ही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के 'अनुसूची सी.डी. एवं ई' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों, मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कौर्पोरेट मैनेजमेंट (भाग-प्रथम) एवं टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) की परीक्षाएं भी निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत में स्थित केन्द्रों) पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के 'अनुसूची जी' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम, इनस्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) की परीक्षा निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत में स्थित केन्द्रों) पर पहली बार होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

**व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम परीक्षा:-** पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 25-बी (4) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:- 8, 10, 11 और 12 मई, 2004 (प्रातः कालीन सत्र- 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

**व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय परीक्षा:** पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 28-बी (5) के अन्तर्गत जारी की गई है, के अनुसार :-

ग्रुप-I	:	3, 5 और 6 मई 2004
ग्रुप-II	:	7, 8 और 10 मई, 2004
		(दोपहर का सत्र- 12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक)

भारतीय समयानुसार।

**फाइनल परीक्षा:** पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 31(2) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:-

ग्रुप-I	:	3, 5, 6 और 7 मई 2004
ग्रुप-II	:	8, 10, 11 और 12 मई, 2004
		(प्रातः कालीन सत्र- 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

**मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कौर्पोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) एवं टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) परीक्षाएँ :-**

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के "अनुसूची सी, डी. एवं ई." के अन्तर्गत:

ग्रुप-1 : 3 और 5 मई 2004

ग्रुप-II : 6 और 7 मई, 2004

(प्रातः कालीन सत्र- 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

**इनस्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा :-**

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 की 'अनुसूची जी' के अन्तर्गत:

माइयूल 1 से 4 :- 3, 5, 6 और 7 मई 2004

(प्रातः कालीन सत्र- 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

**परीक्षा केन्द्र**

**(1) भारत में परीक्षा केन्द्र :-**

01. आगरा	02. अहमदाबाद	03. अजमेर	04. अकोला
05. इलाहाबाद	06. एलेप्पी	07. अलवर	08. अम्बाला
09. अमृतसर	10. आसनसोल	11. औरंगाबाद	12. बंगलौर
13. बरेली	14. बड़ौदा	15. भठिन्डा	16. बेलगाँव
17. भीलवाड़ा	18. भोपाल	19. भुवनेश्वर	20. बीकानेर
21. कालीकट	22. चण्डीगढ़	23. चैन्नई	24. कोयम्बटूर
25. कटक	26. देहरादून	27. दिल्ली/नई दिल्ली	28. धनबाद
29. दुर्ग	30. इरनाकुलम	31. फरीदाबाद	32. गुवाहटी
33. गाजियाबाद	34. गोवा	35. गुड़गाँव	36. ग्वालियर
37. हिसार	38. हुबली	39. हैदराबाद	40. इन्दौर
41. जबलपुर	42. जयपुर	43. जलंधर	44. जलगाँव
45. जम्मू	46. जमशेदपुर	47. जोधपुर	48. कानपुर
49. कोल्हापुर	50. कोलकाता	51. कोटा	52. कोट्टायाम
53. लखनऊ	54. लुधियाना	55. मदुरई	56. मंगलौर
57. मथुरा	58. मेरठ	59. मुरादाबाद	60. मुम्बई
61. मुजफ्फरनगर	62. मैसूर	63. नागपुर	64. नासिक
65. नौएडा	66. पालघाट	67. पानीपत	68. पटियाला
69. पटना	70. पूना	71. रायपुर	72. राजकोट
73. रांची	74. रोहतक	75. सहारनपुर	76. सेलम
77. शिमला	78. सिलिगुड़ी	79. शोलापुर	80. सूरत
81. तिरुचिरापल्ली	82. त्रिचुर	83. त्रिवेन्द्रम	84. उदयपुर
85. उडुपी	86. उज्जैन	87. वाराणसी	88. विजयवाड़ा
89. विशाखापटनम	90. यमुनानगर		

(2) **विदेशों में परीक्षा केन्द्र:-** (केवल व्यवसायिक परीक्षा-प्रथम, व्यवसायिक परीक्षा-द्वितीय एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये)

01. दुबई (यूएई)
02. काठमांडू (नेपाल)

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीट्यूट के “सचिव” के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है।

व्यवसायिक परीक्षा-प्रथम, व्यवसायिक परीक्षा-द्वितीय एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्रों, जो 05 फरवरी, 2004 से उपलब्ध होंगे, पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 50/-रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। साथ ही मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कौरपोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) और इन्सोरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्र जो कि 05 फरवरी 2004 से उपलब्ध होंगे, पर ही किया जाना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नकद भुगतान करने पर 05 फरवरी, 2004 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 26.02.2004 तक पहुँच जाय। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के दिल्ली कार्यालय में 26.02.2004 के बाद 04.03.2004 तक 200/-रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 04.03.2004 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है या इंस्टीट्यूट के विकेंद्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकता, चैन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 26.02.2004 तक जमा कराया जा सकता है।

जबकि इंस्टीट्यूट के सदस्यों की परीक्षाओं- मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कौरपोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) और इन्सोरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट परीक्षाओं के आवेदन पत्र केवल इंस्टीट्यूट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं।

इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

**विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है:-**

**व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम परीक्षा** - शुल्क 700/- रुपये

**व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय परीक्षा**

- शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिए 750/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिए 450/- रुपये

**फाईनल परीक्षा**

- शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिए 900/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिए 550/- रुपये

**मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कौर्पोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) और टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) परीक्षाएँ:-**

- शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिए 400/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिए 200/- रुपये

**इनस्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा:-**

शुल्क

1000/- रुपये

दुबई केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को अमेरिकन डालर \$ 150/- या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर या एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को भारतीय रुपये 1200/- या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर, एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

**हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता**

व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कौर्पोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) और इनस्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट परीक्षाओं के उम्मीदवारों को केवल उत्तर अंग्रेजी में ही लिखना है।



( वी. सागर )

उप सचिव (परीक्षा)



## EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

No: 2/1959/DLI/EXEMP/89/Pt.I/1869 New Delhi-110066, the 12th January 2004

S.O. ....Whearea the employer of the establishment mentioned in Scheduled - I (hereinafter referred to as the said establishment ) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercised of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule - II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule - I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, \_\_\_\_\_ from the operation of said Scheme for a period of 3(three) years.

## HIMACHAL PRADESH

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Hotel Himland West Cart Road, Shimla	HP/11977	01-03-02 to 28-02-05
2	M/s. Deewanchand Arma Ram, The mall., Shimla	HP/11814	01-11-02 to 31-10-05
3	M/s. Ashiana Restaurant, Chotta Shimla	HP/1855	01-03-02 to 28-02-05
4	M/s. New Plaza Restaurant, Shimla	HP/18027	01-01-02 to 31-12-04
5	M/s. East Borne Hotel (P) Ltd., Khalini, Shimla	HP/18121	01-01-02 to 31-12-04
6	M/s. Laurette Public School, Brari, Shimla-171001	HP/18191	01-12-01 to 30-11-04
7	M/s. Nalini Restaurant, Shimla	HP/18306	01-05-02 to 30-04-05
8	M/s. Hotel Ambar Ram Bazar, Shimla	HP/11846	01-03-02 to 28-02-05
9	M/s. Kalra Hardware & Electric Store, The Mall, Shimla	HP/1839	01-05-02 to 30-04-05
10	M/s. Sacred Heart Convent School, Shimla	HP/8276	01-07-02 to 30-06-05
11	M/s. Chappsee School, Shimla	HP/11155	01-03-02 to 28-02-05
12	M/s. Cheltes Naldehra, Shimla	HP/10994	01-09-02 to 31-08-05
13	M/s. Hotel Crystal Palace, Shimla	HP/1874	01-07-02 to 30-06-05
14	M/s. Ahuja Plastic Ltd., The Devices, The Mall, Shimla	HP/11778	01-01-02 to 31-12-05
15	M/s. Hotel Mayur, The Mall, Shimla	HP/11537	01-03-02 to 28-02-05

## ANDHRA PRADESH

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Tessera Systems (I) (P) Ltd., Plot No. 179, Road no. 10, C, Jubilee Hills, Hyderabad-560033	AP/37869	01-07-2001 to 30-06-2004
2	M/s. Eye Labs Ltd., No.97, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad-500034	AP/39545	01-04-2002 to 31-03-2005
3	M/s. Avantech Softech Ltd., BRT Enclave, Nachram, Hyderabad-500076	AP/32125	01-02-2002 to 31-01-2005
4	M/s. Prakashram Dist. Coop. Central Bank Ltd., governor Road, Ongole-523001	AP/4983	01-01-1990 to 31-12-1992 & 01-01-1993 to 31-12-1995 & 01-01-1996 to 31-12-1998 & 01-01-1999 to 31-12-2001 & 01-01-2002 to 31-12-2004
5	M/s. Hindustan Coca Cola beverages (P) Ltd., 37-5-89 Manchukonda Garden, National Highway No.5, Vishakhapatnam-530007	AP/3430	28-11-2001 to 27-11-2004
6	M/s. Bobili Co-op. Urban Bank Ltd. Bobili-535558, Vizimaggam Dist.	AP/VP/22995	21-11-2001 to 20-11-2004
7	M/s. Steel City Foods (P) Ltd., 49-26-182 <sup>nd</sup> Floor, Madhunagar, Vishakhapatnam-530016	AP/30548	02-05-2002 to 01-05-2005
8	M/s. Usha Kiran Movies Ltd., Ramoji Film City, R.R. Dist., Hyderabad-501512	AP/42835	01-06-2002 to 31-05-2005
9	M/s. News Today Television (P) Ltd., ETV Building Ramoji Film City, RR Dist. Hyderabad-501512	AP/36473	01-06-2001 to 31-05-2004
10	M/s. Taj Residency, Road No. 1, Banjara Hills, Hyderabad-500034	AP/28401	01-11-2001 to 31-10-2004
11	M/s. P. Obul Reddy Public School, Road No. 25, Jubilee Films, Hyderabad.	AP/26048	01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2005
12	M/s. Global Co-op. Services (P) Ltd., 4. 1 <sup>st</sup> floor, Mahalakshmi Apt., 177, West Marredpally, Secunderabad-25	AP/39145	01-03-2002 to 28-02-2005
13	M/s. Universal Travels Ramoji Film City, RR Dist., Hyderabad-501512	AP/32131	01-04-2001 to 31-03-2004
14	M/s. Usha Kiran Television, Ramoji Film City, R.R. Dist., Hyderabad-501512	AP/36424	01-03-2001 to 29-02-2004

## ANDHRA PRADESH

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
15	M/s. Sunbeam Ramoji Film city, RR Dist., Hyderabad-501512	AP/32529	01-06-2001 to 31-05-2004
16	M/s. Divis Laboratories Ltd., 7-1-77/E/303, Divi Towers, Dharam karan Road, Ameerpet, Hyderabad-500016	AP/27434	01-10-2001 to 30-09-2004
17	M/s. Usha Kiran Movies, Ramoji Film City, Hyderabad-501512	AP/32127	01-12-2000 to 30-11-2003
18	M/s. Hotel Golkonda, 10-1-124, Masab Tank, Hyderabad	AP/25172	01-11-2001 to 31-10-2004
19	M/s. Confederation Voluntary Association, 20-4-20, Near Bus stand, Charminar, Hyderabad	AP/35725	01-11-1999 to 31-10-2002 & 01-11-2002 to 31-10-2005
20	M/s. Tessera Systems (I) (P) Ltd. Plot No: 179, Road No. 10C, Jubilee Hills, Hyderabad-500033	AP/37869	01-07-2001 to 30-06-2004
21	M/s. Saket Engineers (P) Ltd., 1-30/A, Saket Kapra, ECIL P.O., Hyderabad-500062	AP/32126	01-02-2002 to 31-01-2005
22	M/s. Sprie Resources (I) (P) Ltd., 6-3-192, 4 <sup>th</sup> Floor, My Home Tycon, Green Lands, Begampet, Hyderabad-500016	AP/38249	01-07-2001 to 30-06-2004
23	M/s. Cute Solutions (P) Ltd., 4-7-145/2, Nagendra Nagar Colony, Habsiguda, Hyderabad-500007	AP/37605	01-10-2001 to 30-09-2004
24	M/s. APITCO Ltd., Perisrama Bhavanam, 8 <sup>th</sup> Floor, Bashirbagh, Hyderabad-500029	AP/26335	01-07-2001 to 30-06-2004
25	M/s. Pennar Chemicals Ltd., 3 <sup>rd</sup> floor, Saptagiri Towers, Begampet, Hyderabad	AP/26335	01-07-2001 to 30-06-2004
26	M/s. Viceroy Hotels Ltd., 1-3-1036/1, Lower Tank Begh Road, Gandhi Nagar-500080	AP/29820	01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2005
27	M/s. Poly Inks (P) Ltd. 55 & 58, IDA, Cherlapally, Phase-II, Hyderabad-500051	AP/30654	01-03-2001 to 29-02-2004
28	M/s. Heritage Foods (I) Ltd., 6-3-641/C, Panjaguta, Hyderabad-5000482	AP/29193	01-01-2002 to 31-12-2004
29	M/s. Divis Laboratories Ltd., 1-7-77/E/1/303 Divi Towers, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad-500016	AP/27434A	01-10-2001 to 30-09-2004
30	M/s. Divis Laboratories Ltd., 1-7-77/E/1/303 Divi Towers, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad-500016	AP/27434B	01-10-2001 to 30-09-2004
31	M/s. Shriram Enterprises, 10-1-13, Ramnyapur, Hyderabad	AP/20696	01-07-1999 to 30-06-2002 & 01-07-2002 to 30-06-2005
32	M/s. Sovereign Enterprises, 10-1, Rice Mill Compound, Ramnyapur, Hyderabad-500013	AP/34218	01-07-1999 to 30-06-2002 & 01-07-2002 to 30-06-2005
33	M/s. A. Murali Krishna Reddy, 201, Regency House, Somajiguda, Hyderabad	AP/42767	01-04-2002 to 31-03-2005
34	M/s. Dolphin Hotels Ltd., Daba gardens, Nishakhatnam-530020	AP/129420	01-10-2002 to 30-09-2005

## GOA

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Casino Metal bar & Restaurant, Goa	GOA/10381	01-03-2002 to 28-02-2005
2	M/s. Rural Development Agency, Shanta Building, Panaji	GOA/10273	01-09-2001 to 31-08-2003
3	M/s. Nenula Home (P) Ltd., 53, Pilami Industrial Estate, Goa-403511	GOA/10707	01-04-1998 to 31-03-2001 & 01-04-2001 to 31-03-2004
4	M/s. sports Authority of Goa, Indoor Stadium Complex, Panaji, Goa-403001	GOA/10474	01-07-2001 to 30-06-2004
5	M/s. Citizen Co-op. Bank Ltd., H.O. Vasco D' Gama, Goa	GOA/10394	01-03-2000 to 28-02-2003
6	M/s. Net Cable (I) (P) Ltd, L-5 Verna Electronic City, Verna, Goa-403722	GOA/110215	01-06-2002 to 31-05-2005
7	M/s. Manohar Packing (P) Ltd., D-2/6/7Mapisa Industrial Estate, Mapisa, Goa	GOA/10741	01-03-2002 to 28-02-2005
8	M/s. Sparrow Electronics Ltd., Plot No: 97, Verna Electronic City, Verna, Goa-403722	GOA/10689	01-07-2000 to 30-06-2003
9	M/s. Venus Ethoxyethers (P) Ltd, Vichilim Industrial State, Goa	GOA/10427	01-01-1998 to 31-12-2001
10	M/s. Lanner Electronics (I) (P) Ltd., Varna Industrial Estate, varna, Goa-403722	GOA/110109	01-03-2002 to 28-02-2005
11	M/s. Siva Equipments ltd., Plot No. 5, Varna Industrial Estate, Varna, Goa-403722	GOA/10605	01-03-2002 to 28-02-2005
12	M/s. Qualpro Diagnostics Plot No. 88/89, Phase-IIC, Varna Industrial Estate, Varna, Goa-403722	GOA/10504A	01-08-2002 to 31-07-2005
13	M/s. Institute of Meritime Studies, ISBTY Complex, Bogda, Vasco-D-Gama-403802	GOA/110228	01-09-2002 to 31-08-2005
14	M/s. Styrofoam Cups Containers Ltd., 48-50, Phase-IIIA, Samcol Industrial Estate. Juaranagar-403726	GOA/10781	01-07-2002 to 30-06-2005
15	M/s. Zephyr Biomedicals, M-46/47, Phase-IIIB, Varna Industrial Estate, Varna, Goa-403722	GOA/110185	01-08-2002 to 31-07-2005

## PUNJAB

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Sunny Cycles (P) Ltd., C-196, Focal Point, Phase-VII, Ludhiana	PN/16287	01-12-01 to 30-06-04
2	M/s. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd., Barnala, Dist. Sangrur	PN/10116	24-06-00 to 23-06-03

## UTTAR PRADESH

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Ema (I) Ltd., C-37, Panki Industrial Area, P.O. Udyog Nagar, Kanpur-208022	UP/6128	01-04-1981 to 31-03-1984 & 01-04-1984 to 31-03-1987 & 01-04-1987 to 31-03-1990 & 01-04-1990 to 31-03-1994 & 01-04-1993 to 31-03-1996 & 01-04-1993 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 31-03-2002 & 01-04-2002 to 31-03-2005
2	M/s. Seth Anand Ram Jaipuria School, 70, Cantt., Kanpur	UP/10871	01-09-1995 to 31-08-1998 & 01-09-1998 to 31-08-2001 & 01-09-2001 to 31-08-2004
3	M/s. Kailash Motors Service Station, 3 T Gadrian Purba, Fazalganj, Kanpur	UP/2113	01-10-1989 to 30-09-1992 & 01-10-1992 to 30-09-1995 & 01-10-1995 to 30-09-1998 & 01-10-1998 to 30-09-2001 & 01-10-2001 to 30-09-2004
4	M/s. Gehring (I), C-37, Panki Industrial Area, Udyog Nagar, Kanpur-208022	UP/15026	01-01-1990 to 31-12-1992 & 01-01-1993 to 31-12-1995 & 01-01-1996 to 31-12-1998 & 01-01-1999 to 31-12-2001 & 01-01-2001 to 31-12-2004
5	M/s. Knapur Tractor Workshop, 96/6, Chunniganj, Kanpur	UP/21555	01-08-1999 to 31-07-2002 & 01-08-2002 to 31-07-2005

## UTTAR PRADESH

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
6	M/s. Lohia Machinery Manufacturers Ltd., 499-500/A, Amilithia Choubepur, Kanpur	UP/14267	01-11-1988 to 31-10-1991 & 01-11-1991 to 31-10-1994 & 01-11-1994 to 31-10-1997 & 01-11-1997 to 31-10-2000 & 01-11-2000 to 31-10-2003
7	M/s. Kanour Plasters Pack Ltd. D-19-20 Panki Industrial Area, Kanpur-208022	UP/5067	01-01-1990 to 31-12-1992 & 01-01-1993 to 31-12-1995 & 01-01-1996 to 31-12-1998 & 01-01-1999 to 31-12-2001 & 01-01-2002 to 31-12-2004
8	M/s. Injecto Plast (P) LTD., Plot No; 485B, Alimithia Chaubepur, Kanpur	UP/16925	01-04-1993 to 31-03-1996 & 01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-03-2003
9	M/s. Shri Industries & Engineering Works (P) Ltd., D-3B, Panki Industrial Estate, Kanpur-208022	UP/11354	01-08-1993 to 31-07-1996 & 01-08-1996 to 23-08-1999
10	M/s. Kothari Products Ltd., 24/19, The Mall, Kanpur	UP/14201	01-06-1993 to 31-05-1996 & 01-06-1996 to 31-05-1999 & 01-06-1999 to 31-05-2002 & 01-06-2002 to 31-05-2005
11	M/s. Tirupati Service Ltd., 84/105 G.T. Road, Kanpur-208003	UP/19343	01-12-1994 to 30-11-1997 & 01-12-1997 to 30-11-2000 & 01-12-2000 to 30-11-2003

## MADHYA PRADESH

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Llyod Insulations (I) (P) LTD, Plot No. 102, AKVN Industrial Area, Pithampur	MP/9680	01-02-00 to 31-01-03
2	M/s. Katni Cement (P) Ltd., 19/115 Singhai Colony, Barahi Road	MP/9381	20-08-01 to 19-08-04
3	M/s. Universal Cables Ltd. P.O. No. 9, Satna	MP/1511	01-06-88 to 31-05-91 & 01-06-91 to 31-05-94 & 01-06-94 to 31-05-97 & 01-06-97 to 31-05-00 & 01-06-00 to 30-06-03
4	M/s. Savaji Hotels Ltd., Scheme No: 54, Vijaya Nagar, Indore	MP/10423	01-03-01 to 29-02-04
5	M/s. Everest Gems (P) Ltd., 199A, Industrial Area, Sector-1, Pithampur	MP/7015	01-03-98 to 28-02-01 & 01-03-01 to 29-02-04

## MAHARASHTRA

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Swati Profiles (P) Ltd., Construction House, 796/189B, Bhandarkar Institute Road, Deccan Gymkhana, Pune-411004	MH/30804	01-07-01 to 31-03-02
2	M/s. Varsha Agro Plast (P) Ltd, Construction House, 796/189B, Bhandarkar Institute Road, Deccan Gymkhana, Pune-411004	MH/30433	01-07-01 to 30-06-04
3	M/s. Western Slug Industries, 251/1 AB, Hadapsar Industrial Area, hadaspar, Pune	MH/30606	01-03-92 to 28-02-95 & 01-03-95 to 28-02-98 & 01-03-98 to 23-06-00 & 24-06-00 to 23-06-03
4	M/s. Amogh Plastopack (P) Ltd, 796/189B, Bhandarkar Institute Road, Deccan, Gymkhana, Pune-411004	MH/30803	01-07-01 to 30-06-04
5	M/s. Kasarai Mahratta Trust, 568, Naryananpeeth, Pune-411030	MH/1222	01-03-89 to 28-02-92 & 01-03-92 to 28-02-95 & 01-03-95 to 28-02-98 & 01-03-98 to 23-06-00 & 24-06-00 to 23-06-03
6	M/s. Indian Seamless Steels & Alloys Ltd, Jejurs Morgaon Road,, Village Kolvihri, P.O. Jejuri-412303, Tehsil Purandra, Dist. Pune	MH/31480	01-07-99 to 30-06-02 & 01-07-02 to 30-06-05
7	M/s. Western Hatcheries Ltd., 114/A/2, venkateswara House, Singhad Road, Pune-411030	MH/30084	01-01-94 to 31-12-96 & 01-01-97 to 31-12-99 & 01-01-00 to 23-06-00 & 24-06-00 to 23-06-03
8	M/s. RSA Industries (P) Ltd, Ranka Bhawan, 110, Dhantoli, Nagpur-440012	MH/60136	01-06-99 to 31-05-02 & 01-06-02 to 31-06-05



## KARNATAKA

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Mahajan Education Society, Jayalakshmi Puram, Mysore-570012	KN/22066	01-10-1998 to 30-09-2001 & 01-10-2001 to 30-09-2004
2	M/s. Accelerated Network (I) (P) Ltd., N.A. Chambers, 1 <sup>st</sup> Floor, 3J, 7 <sup>th</sup> C, Main III Block, 3 <sup>rd</sup> Cross, Koramangala, Bangalore-560034	KN/24283	01-03-2000 to 28-02-2003
3	M/s. Dickenson Fuelar Ltd. Plot No: 249, 250, Bommasandra Industrial Area, 3 <sup>rd</sup> Phase, Bangalore-562158	KN/34098	01-12-2001 to 30-11-2004
4	M/s. Fowler Westrup (I) Ltd., Plot No. 249, 250, Bommasandra Industrial Area, 3 <sup>rd</sup> Phase, Bangalore-562158	KN/34070	01-12-2001 to 30-11-2004
5	M/s. L&T Komatsu Ltd., Bellary Road, Byatarayanapura, Bangalore-560092	KN/10172	01-06-1999 to 30-05-2002
6	M/s. Gowrishankar Engineering Industries, No: 269, 4 <sup>th</sup> Phase, Peenya Industria; Area, Bangalore-560058	KN/BN/19520	01-12-2001 to 30-11-2004
7	M/s. KREC English Medium High School, Srinivas Nagar, Surathkal-574154 (DK)	KN/20035	01-08-2001 to 31-07-2004
8	M/s. Alcon Laboratories (I) (P) Ltd., 5 <sup>th</sup> Floor, Gopal Krishna Complex, 45/3 Residency Road Cross, Bangalore-560025	KN/19618	01-01-2001 to 31-12-2003
9	M/s. Sasken Communications Technology Ltd., No: 139/25, Amar Jyoti Layout, Ring Road, Domlur P.O., Bangalore-560071	KN/14943	01-03-2001 to 28-02-2004
10	M/s. Prismatic Engineering (P) Ltd., 147 F, 8 <sup>th</sup> Main, 3 <sup>rd</sup> Block, Koramangala, Bangalore-5537234	KN/23311	01-05-2001 to 29-02-2004
11	G.E. India Technology Centre (P) Ltd., John F. Welch Technology Centre, Export Industrial Park, Phase-II, Plot No: 122, Hoodi Village, Whitefield Road, Bangalore-560066	KN/24496	01-04-2002 to 31-03-2005
12	M/s. Naval Rayons, No: 103, 3 <sup>rd</sup> Main Road, Industrial Town, Rajaji Nagar, Bangalore-560044	KN/13848	01-03-2001 to 29-02-2004

## KARNATAKA

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
13	M/s. Bell Ceramics Ltd., Village Chokahalli T.K., Hoskoti, District: Bangalore (Rural), Karnataka-562114	KN/23089	01-01-1998 to 31-12-2000 & 01-01-2001 to 31-12-2003
14	M/s. Concab Travel (P) Ltd, B-2, Janak Residency, Kumara Park Road, Bangalore-560001	KN/24288	01-03-2000 to 28-02-2003
15	M/s. MAC Centrum Electronic Ltd., No: 44, KHB Industrial Area, Yellehanka, Bangalore-560064	KN/23479	01-01-2002 to 31-12-2004
16	M/s. Team Saachi Advertising (P) Ltd., MBC 1 <sup>st</sup> Floor, No: 134, Infantry Road, Bangalore-560001	KN/13976	01-01-1996 to 31-12-1998 & 01-01-1999 to 31-12-2001
17	M/s. Shell Sands, 103 Industrial Town, Bangalore-560044	KN/18301	01-03-2001 to 29-02-2004
18	M/s. Network Solutions Ltd., No: 674, 6 <sup>th</sup> Cross, 3 <sup>rd</sup> Block, Koramangala, Bangalore-560034	KN/18966	01-02-2001 to 31-01-2004
19	M/s. Radel Electronics (P) Ltd., 74D Kenonicks Electronics City, Hosur Road, Bangalore-561229	KN/BN/19455	01-03-2001 to 29-02-2004
20	M/s. Hrishnamurti Foundation (I), The Valley School, 17 <sup>th</sup> K.M. Kanakapura Road, Tharguni Post, Bangalore-560062	KN/11764	01-04-2002 to 31-03-2005
21	M/s. Fanuk (I) Ltd., 41-A Electronics City, Hosur Road, Bangalore-561229	KN/BN/18171	01-03-1995 to 28-02-1998 & 01-03-1998 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 28-02-2004
22	M/s. GRV International 1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> Main, 1 <sup>st</sup> Block, GG Palia Yeshwant, Bangalore-560022	KN/10 25274	01-11-2001 to 31-10-2004
23	M/s. Health Scribe (I) Ltd., 1 Health Enclave Plaza, Block 8, Bnagalore-560095	KN/19360	01-11-2001 to 31-10-2004
24	M/s. Associated Commercial Enterprises, Plot No: 40(E), Dodnakundi Industrial Area, Mahadev Pura, Bnagalore-560048	KN/15079	01-06-2001 to 31-05-2004
25	M/s. DTS Information System (P) Ltd, 48 Linden Street, Palmgrove Road, Autin Town, Bangalore-560047	KN/24017	01-09-1999 to 31-08-2002 & 01-09-2002 to 31-08-2005

## KARNATAKA

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
26	M/s. MMT (I) (P) Ltd., 71C DodaThogure, Electronic City, Bangalore South-561229	KN/34031	01-07-2002 to 30-06-2005
27	M/s. Web Spectrum Software (P) Ltd., No: 818 1 <sup>st</sup> Floor, 13 <sup>th</sup> Cross, 7 <sup>th</sup> Block, West Jayanagar, Bangalore-560082	KN/23840	01-07-2002 to 30-06-2005
28	M/s. GCI Exports (P) Ltd., A-73 KSSIDC Industrial Estate, Bommasandra, Bangalore-562158	KN/24021	01-04-2001 to 31-03-2004
29	M/s. Interplex Electronics (I) (P) Ltd, 89 A, Electronics Road,, Bangalore-561229	KN/24271	01-04-2001 to 31-03-2004
30	M/s. Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Ltd., 3 <sup>rd</sup> Floor, Reserve Bank of India Building, 1013 18 Narupatunga Road, Bangalore-560001	KN/19774	01-03-1997 to 29-02-2000 & 01-03-2000 to 28-02-2003
31	M/s. Albion Travels, Kumudavli Building, Balmata, Mangalore-575002	KN/12018	01-01-2002 to 31-12-2004
32	M/s. Tata Advanced Materials Ltd., 10 Jagiani Industrial Area, Jagiani-562106, Bangalore Distt	KN/19242	01-03-2001 to 29-02-2004
33	M/s. SCI Carbon Brushes (P) Ltd., 69/1 A Begur, Hubli, Bemannahalli, Bangalore-560068	KN/BN/14743	01-01-2000 to 31-12-2002
36	M/s. Timkan Engr. & Research (I) (P) Ltd., No: 32, Grape Garden, 17H Main Road, 6 <sup>th</sup> Block, Koramangala, Bangalore-560095	KN/24164	01-07-2002 to 30-06-2005
37			
38	M/s. Snowman Frozen Foods Ltd., 570, 5 <sup>th</sup> Main, 17 <sup>th</sup> Cross, Indira Nagar, 2 <sup>nd</sup> stage, Bangalore-560038	KN/BN/23090	01-10-2001 to 30-09-2004
39	M/s. TT Enterprises (P) Ltd., 102, Raheja Chambers, 12 Museum Road, Bangalore-560001	KN/BN/24617	01-04-2002 to 31-03-2005
40	M/s. Canara Engr. College, Benjanapadaeva Bantwal-Talluk	KN/20538	01-12-2001 to 30-11-2004

## KARNATAKA

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
41	M/s. Narayana Hrudalya (P) Ltd., No.2587 A Bommasandra Industrial Area, Bangalore-562158	KN/34066	01-11-2002 to 31-10-2005
42	M/s. U.V. Circuits (P) Ltd. 48A, 158/2, 4 <sup>th</sup> Block, 5 <sup>th</sup> Main Road, 3 <sup>rd</sup> Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-562110	KN/13111	01-02-2001 to 31-01-2004
43	M/s. Puttur Petro Productss (P) Ltd., 187 Nehru Nagar, Puttur-574203	KN/20239	01-10-1999 to 30-09-2002 & 01-10-2002 to 30-09-2005
44	M/s. K. mOhan & Co. (Exports) Regd. No: 16/3, Veerasandra Village, Hebagaodi Post, Hosur Road, Bangalore-562128	KN/34036	01-05-2001 to 30-04-2004
45	M/s. Aruna (I) Ltd. Plot No: 39B, 2 <sup>nd</sup> Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-560058	KN/10676	01-01-2000 to 31-12-2002
46	M/s. Amsoft Information (I) (P) Ltd, 121, 6 <sup>th</sup> Floor, Estate Road, Dickenson, Bangalore-562142	KN/23428	01-09-1999 to 31-08-2002 & 01-09-2002 to 31-08-2005
47	M/s. Autoliv IFB (I) (P) Ltd., 16, Vishveriah Industrial Estate, 1 <sup>st</sup> Main Road, Offwhitefield Road, Mahadevpura-562148	KN/19173	01-03-1999 to 28-02-2002
48	M/s. Bhandari Metals & Alloys (P) Ltd, 7 <sup>th</sup> Mile, Hosur Road, Bangalore-560068	KN/5678	01-10-1989 to 30-09-1992 & 01-10-1992 to 30-09-1995 & 01-10-1995 to 30-09-1998 & 01-10-1998 to 30-09-2001 & 01-10-2001 to 30-09-2004
49	M/s. Hindivahak (P) Ltd, Site No:17, Phase-I, Peenya, Industrial Area, Bangalore-560058	KN/3649	01-10-2002 to 30-09-2005
50	M/s. Axes Technologies (I) (P) Ltd, 9/7, Hosur Road, Bangalore, 560029	KN/24043	01-06-2001 to 31-05-2004
51	M/s. Elca Carbon Lorraina (P) Ltd, 5, Bommasandra Industrial Area, Bangalore-562158	KN/ 18912	01-02-1996 to 31-01-1999 & 01-02-1999 to 31-01-2002 & 01-02-2002 to 31-01-2005
52	M/s. Continental Exporters, 7, Miller Tank Bed Area of Queens Road, Bangalore-562052	KN/5717	01-04-1999 to 31-03-2002

## KARNATAKA

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
53	M/s. New Kiran Processors, Badaga Mizar Ashwatha Pura, Managlore-Taluq	KN/20483	01-12-2002 to 30-11-2005
54	M/s. Zeta Infotech (P) LTd., Udayavani Building, Manipal-576119	KN/20294	01-01-2003 to 31-12-2005
55	M/s. Hotel Green Park, Manipal-576119 (Udupi Distt.)	KN/12257	01-03-2003 to 28-02-2006
22	M/s. G.R.V. International, I-II Main, Ist Block, G. G. Palaya, Yeshwantpur, Bangalore-22	KN/29274	01-07-02 to 30-06-05
35	M/s. Snowmen Frozen Foods Ltd., No. 570, 5th Main, 17th Cross India Nagar, 2nd Stage; Bangalore-38	KN/23090	01-10-2001 to 30-09-04

S C H E D U L E - II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.


4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund or an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
9. Therefore any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (s) Legal Heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) Legal Heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

2/1959/OLI/Exem/89/PwI

  
(S.R. JOSHI)

Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/E.E.T/89/Pt. I /1869

S.O.....whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.



## RAJASTHAN

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
1	M/s. Scan Synthetics Ltd., Bhiwadi	RJ/9116	24-06-2000 to 23-06-2003
2	M/s. Jaydee Agro Chemicals Ltd., Jaipur	RJ/3315	01-03-1995 to 28-02-1998 & 01-03-1998 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
3	M/s. Jaipur Zilla Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur	RJ/1324	19-05-1989 to 18-05-1992 & 19-05-1992 to 18-05-1995 & 19-05-1995 to 18-05-1998 & 19-05-1998 to 18-05-2001 & 19-05-2001 to 18-05-2004
4	M/s. Jaipur Roller Flour Mills(P) Ltd, Jaipur	RJ/4604	24-06-2000 to 23-06-2003
5	M/s. Ginni International Ltd., Neemrana Dist., Alwar, Rajasthan	RJ/9163	24-06-2000 to 23-06-2003

## GUJARAT

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
1	2/1959/DL/Exemp/89/Pt. I/36285 dt. 27-01-1999	M/s. Cadila Health Case Ltd. (GJ/SKT/3993)	01-03-1999 to 28-02-2002
2	-do- dt. 10-03-1999	M/s. Gram Seva Trust (GJ/SKT/31006)	01-02-2001 to 31-01-2004
3	-do- dt. 08-10-1998	M/s. Techno Forge Ltd. (GJ/9615)	

SCHEDULE-1

SL. No.	Previous Notification No. and date	Name of the establishment with Cee No.	Period of Exemption
1.	2/1959/EDLI/ 89/Exemp./89/ Pt.1 dated 4.9.99	M/s. Hindustan Motors Ltd., Ltd., P.O. Hindustan Motor. Dist., Hooghly, (WB/370)	17.12.2001 to to 16.12.2004
2.	-do- dated 15.11.97	M/s. Mother Dairy, Kolkata, P.O. Dankuni Coal Complex, Dist., Hooghly (WB/16628 )	1.2.98 to 31.1.01 and 1.02.2001 to 31.01.2002

## MAHARASHTRA

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
1	2/1959/DLI/Exm/89/Pt.1/567 dt. 27-02-1997	M/s. Shernuj & Co. Ltd., 405, Dharam Palace, Mumbai-400007 (MH/24581)	01-02-1998 to 31-01-2001 & 01-02-2001 to 31-01-2004
2	-do- dt. 27-02-1997	M/s. Shernuj & Co. Ltd., 405, Dharam Palace, Mumbai-400007 (MH/24581A)	01-02-1998 to 31-01-2001 & 01-02-2001 to 31-01-2004
3	-do- dt. 27-02-1997	M/s. Shernuj & Co. Ltd., 405, Dharam Palace, Mumbai-400007 (MH/24581B)	01-02-1998 to 31-01-2001 & 01-02-2001 to 31-01-2004
4	-do- dt. 15-03-1999	M/s. DGP Hinoday Industries Ltd., Pune-410506 (MH/32244)	01-04-2001 to 31-03-2004
5	-do- dt. 13-11-1991	M/s. Indochem Ltd. Compound 7/C, Bhagoji Keer, Mumbai-400016 (MH/2338)	01-03-1993 to 29-02-1996 & 01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2005
6	-do- dt. 08-04-1993	M/s. Pest Control (I) Ltd., 36 Yusuf Building, M.G. Road, Fort, Mumbai-400001 (MH/4029)	01-06-1993 to 31-05-1996 & 01-06-1996 to 31-05-1999 & 01-06-1999 to 31-05-2002 & 01-06-2002 to 31-05-2005
7	-do- dt. 08-04-1993	M/s. Pest Control (I) Ltd., 36 Yusuf Building, M.G. Road, Fort, Mumbai-400001 (MH/4029A)	01-06-1993 to 31-05-1996 & 01-06-1996 to 31-05-1999 & 01-06-1999 to 31-05-2002 & 01-06-2002 to 31-05-2005
8	-do- dt. 15-01-2000	The Akola Dist. Central Co-op. Bank Ltd. Akola-444001 (MH/6934)	07-02-2001 to 06-02-2004

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
9	-do- dt. 05-01-1998	M/s. Tat Infomedia Ltd., 414, Vir savarkar Marg, Prabhudevi, Mumbai-400025 (MH/986)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2005
10	-do- dt. 05-01-1998	M/s. Tata Infomedia Ltd., 414, Veer Savarkar Marg, Prabhudevi, Mumbai-400025 (MH/986)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2005
11	-do- dt. 24-01-1999	M/s. Agricultural Finance Corpn. Ltd., Dhanraj Mahal, Mumbai-400001 (MH/18863)	19-03-2001 to 18-03-2004
12	-do- dt. 02-11-1998	M/s. Asia Brown Boveri Ltd., Veera Desai Road, Andheri, Mumbai-400053 (MH/4367)	25-11-1997 to 24-11-2000 & 25-11-2000 to 24-11-2003
13	-do- dt. 12-03-1999	M/s. Camlin Ltd., J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai-400059 (MH/2560)	28-08-2001 to 27-08-2004
14	-do- dt. 24-01-1999	M/s. Century Textiles Industries Ltd., P.B. Marg, Mumbai-400025 (MH/4269 & MH/96)	25-11-2000 to 24-11-2003 & 02-01-2001 to 01-01-2004
15	-do- dt. 02-05-1993	M/s. Kores (I) Ltd., Dr. E. Moses Road. Worli, Mumbai-400018 (MH/4996)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 28-02-2002
16	-do- dt. 11-06-1999	M/s. ION Exchange (I) Ltd., Dr. E. Moses Road, Mumbai-400011 (MH/8208)	01-06-2002 to 31-05-2005

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
17	-do- dt. 17-02-1996	M/s. Sai Service Station Ltd., 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013 (MH/35070)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2003
18	-do- dt. 26-03-1993	M/s. Indian Aluminum Co. Ltd., Belapur Rd. Kalur Thane-400605 (MH/616)	23-10-1993 to 22-10-1996 & 23-10-1996 to 22-10-1999 & 23-10-1999 to 23-10-2002 & 23-10-2002 to 22-10-2005
19	-do- dt. 31-01-2000	M/s. Heinz Inida (P) Ltd., D Shivasagar, 7 <sup>th</sup> 8 <sup>th</sup> floor, Dr. A.B. road, Worli-400018 (MH/40581)	01-10-2003 to 3-09-2006
20	-do- dt. 21-11-1990	M/s. Best Undertaking Best House P.B. 192, Mumbai-400039 (MH/1568)	01-04-1993 to 31-03-1996 & 01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 31-03-2002 & 01-04-2002 to 31-03-2005
21	-do- dt. 23-01-2001	M/s. Peoples Mobile Hospital, P.M.H. Building, Dr. Amil besant Road, Worli-400025 (MH/13654)	01-06-1999 to 31-05-2002 & 01-06-2002 to 31-05-2005

GOA

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
1	2/1959/DLI/Exemp: 89 Pt.I dt. 15-11-1997	M/s. Electro Engg. Enterprises, P.O.-125, Margo, Goa-403601 (GOA/10127)	01-04-1999 to 31-03-2002 & 01-04-2002 to 31-03-2005
2	-do- dt. 15-11-1997	M/s. Chowgle Co. Ltd., Chowgale House, Goa-403803 (GOA/9729)	01-04-1999 to 30-11-2001
3	-do- dt. 04-02-1999	M/s. Nani Resorts (P) Ltd., Nani House, Varde, Valerikar Road, Margo, Goa-403601 (GOA/10561)	01-09-1999 to 31-08-2002
4	-do- dt. 16-04-1996	M/s. Sapna Ceramics (P) Ltd., P.B. No: 125, Margo, Goa-403601 (GOA/16127F)	01-01-2000 to 31-12-2002
5	-do- dt. Nil	M/s. O' Herald, Dioggi De Kuttu Road, P.O. No: 160, Panaji, Goa-403001 (GOA/9714)	01-08-1991 to 31-07-1994 & 01-08-1994 to 31-07-1997 & 01-08-1997 to 31-07-2000 & 01-07-2000 to 31-08-2003

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
1	2/1959/DLI/Exem/89 dt. 01-06-1998	M/s. Unico Leather Products (P) Ltd, Pallikonda-635809 (TN/30013)	01-03-2000 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2003
2	-do- dt. 29-08-2001	M/s. IRT Polytechnic Tirunelveli (TN/33045)	24-06-2002 to 23-06-2005
3	-do- dt. 26-10-1999	M/s. Vanavil Dyes & chemicals Ltd., Cuddalore & its branches (TN/17523)	01-03-2002 to 28-02-2005
4	-do- dt. 19-05-1999	M/s. Kali Engg. Consultancy & Service (TN/17019A)	01-04-2001 to 31-03-2004
5	-do- dt. 16-03-1999	M/s. The Kombakonam Mutual Benefits Fund Ltd. (TN/10916)	01-03-1999 to 28-02-2002
6	-do- dt. 09-02-2001	M/s. Kaleswari Fire Works Adm. Office, Sivakasi (TN/4397)	01-03-2002 to 28-02-2005
7	-do- dt. 08-02-1999	M/s. Mani Spinning Mills (P) Ltd. (TN/29721A)	01-12-2000 to 31-11-2003
8	-do- dt. 01-04-1999	M/s. Adistankara Spinning Mills (P) Ltd. (TN/41095)	01-02-2001 to 31-01-2004
9	-do- dt. 01-04-1999	M/s. Veyas Alloys (P) Ltd., Coimbatore (TN/28624)	01-08-2000 to 31-7-2003
10	-do- dt. 15-05-1999	M/s. Gee Dee Hopt Pvt. Ltd. (TN/6935)	01-05-2000 to 30-04-2003
11	-do- dt. 23-01-1999	M/s. Jeestex Engg. Ltd. (TN/17552)	01-09-1999 to 30-11-2000 & 01-12-2000 to 30-11-2003

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
12	-do- dt. 26-10-1989	M/s. Textool Co. Ltd. (TN/77A)	01-03-1991 to 28-02-1994 & 01-03-1994 to 28-02-1997 & 01-03-1997 to 29-02-2000 & 01-03-2000 to 28-02-2003
13	-do- dt. 03-04-2000	M/s. Premier Polytronics (P) Ltd. (TN/17467)	01-08-2002 to 31-07-2005
14	-do- dt. 30-03-2000	M/s. Jayalakshmi Machine Works (TN/21425)	01-03-2002 to 28-02-2005
15	-do- dt. 22-09-1999	M/s. Rotork Controls (I) Ltd. & its 4 branches (TN/22330)	24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 28-02-2004
16	-do- dt. 02-12-1996	M/s. Madras Metal Pressings Chennai (TN/8155)	01-04-1996 to 22-06-1998 & 22-06-1998 to 28-02-2001
17	-do- dt. 13-01-2000	M/s. CRP India (P) Ltd. (TN/119220)	01-04-2002 to 31-03-2005
18	-do- dt. 23-11-1995	M/s. Bombay Ammonia (MS) (P) Ltd. (TN/3230)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
19	-do- dt. 26-10-1997	M/s. Neptune Refrigerations Co. (P) Ltd. & its 1 branch (TN/10965)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
20	-do- dt. 14-01-2000	M/s. Leather Crafts (I) (P) LTd. (TN/16582)	01-09-2001 to 31-08-2004

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
21	-do- dt. 01-04-1999	M/s. Pondicherry Adidraavidar Dev. Corp. Ltd. & its branches (TN/523)	01-06-2000 to 31-05-2003
22	-do- dt. 14-01-2000	M/s. Blackstone Market Factors (I) (P) Ltd. (TN/40583)	24-06-2000 to 31-10-2000 & 01-11-2000 to 31-10-2003
23	-do- dt. 17-11-1999	M/s. Jai Balaji & Co. (TN/17267)	24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
24	-do- dt. 12-04-1993	M/s. Elasto Mills (P) Ltd. (TN/22332)	01-11-1995 to 31-10-1998 & 01-11-1998 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-10-2000 & 01-11-2000 to 31-10-2003
25	-do- dt. 19-04-1994	M/s. Flowserve Sanmar Ltd. (TN/9620)	01-04-1993 to 31-03-1996 & 01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 23-06-2003
26	-do- dt. 19-03-1999	M/s. Lotus Industries (TN/8569)	01-03-2000 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 23-06-2003
27	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Compass Shipping & Trading (P) Ltd. & its 5 branches (TN/36819)	24-06-2000 to 23-06-2003
28	-do- dt. 13-01-2000	M/s. MIL Industries Ltd. & its 1 branch (TN/6993)	24-06-2000 to 31-07-2000 & 01-08-2000 to 31-07-2003
29	-do- dt. 10-01-1999	M/s. Productivity Elements (P) Ltd. (TN/5374)	24-06-2000 to 31-07-2000 & 01-08-2000 to 31-07-2003



## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
30	-do- dt. 20-05-1999	M/s. Premier Carbon Industries (TN/30997)	24-06-2000 to 31-01-2001 & 01-02-2001 to 31-01-2004
31	-do- dt. 08-11-2000	M/s. Petrochemicals engg. Enterprises (TN/10219)	24-06-2000 to 30-09-2000 & 01-10-2000 to 31-09-2003
32	-do- dt. 09-02-2001	M/s. Amulya Sea Foods Tuticorin (TN/20977)	24-06-2000 to 31-08-2001 only they are implementing EDLI scheme for 01-09- 2001 onwards
33	-do- dt. 19-03-1999	M/s. Mc. Dowell & Company (TN/281)	01-06-1999 to 23-06-2000
34	-do- dt. 01-04-1999	M/s. India Comnet International (P) Ltd (TN/36297)	24-06-2000 to 23-06-2003 01-03-2001 to 29-02-2004
35	-do- dt. 13-05-1997	M/s. Somasundaram Mills, Coimbatore (TN-53)	01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 31-11-2000
36	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Maharishi Vidya Mandir Sr. Sec. School (TN/3731)	01-12-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 30-11-2000 & 01-12-2000 to 30-11-2003
37	-do- dt. 13-01-1997	M/s. Alagendra Textiles Ltd. (TN/16354)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 02-08-2005
38	-do- dt. 17-08-1999	M/s. Ratnavel Subramaniam College of engg. & Technology (TN/20889A)	01-04-1999 to 31-03-2002 & 01-04-2002 to 31-03-2005

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
39	-do- dt. 11-11-1995	M/s. India Pistons repco Ltd., Thiruvelllore (TN/4924)	01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-03-2001 & 01-04-2001 to 31-03-2004
40	-do- dt. 03-03-2000	M/s. Pillar Induction (I) (P) Ltd. & its 1 factory & 1 office (TN/19365)	01-02-1998 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-01-2001 & 01-02-2001 to 31-01-2004
41	-do- dt. 19-05-1999	M/s. International Flavours & fragrances (I) Ltd. & its 6 branches (TN/3133)	01-07-1999 to 30-06-2002 & 01-07-2002 to 30-06-2005
42	-do- dt. 10-08-1999	M/s. Southern Alloy Foundaries (P) Ltd. (TN/4260)	01-07-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 30-06-2000 & 01-07-2000 to 30-06-2003
43	-do- dt. 19-03-1999	M/s. Samsons Rubber Industries (P) ltd. (TN/19179)	01-07-2001 to 30-06-2003
44	-do- dt. 22-09-1999	M/s. Kone Elevators(I) ltd & its 23 branches (TN/19848)	24-06-2000 to 31-10-2000 & 01-11-2000 to 31-10-2003
45	-do- dt. 31-11-1994	M/s. Computer graphics Ltd. & its 9 branches (TN/22506)	01-10-1995 to 30-09-1998 & 01-10-1998 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 30-09-2000 & 01-10-2000 to 30-09-2003
46	-do- dt. 15-05-1999	M/s. The Kumbakonam Milk Products Co-op. Society Ltd. (TN/6939)	01-03-2001 to 29-02-2004

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
47	-do- dt. 28-05-1992	M/s. Sri Ramakrishna Mills Ltd. salem & its branch (TN/25344)	01-07-1994 to 30-06-1997 & 01-07-1997 to 30-06-2000 & 01-07-2000 to 28-02-2001
48	-do- dt. 02-11-1995	M/s. Indrad Auto Components (TN/22705)	01-10-1995 to 30-09-1998 & 01-10-1998 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 30-09-2000 & 01-10-2000 to 30-09-2003
49	-do- dt. 09-02-2001	M/s. Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd. (TN/22238)	01-12-2000 to 30-11-2003
50	-do- dt. 30-08-2000	M/s. Bayer Indian Systems Ltd. (TN/16852)	24-06-2000 to 23-06-2003
51	-do- dt. 17-08-1999	M/s. Asia Tobacco Co. Ltd. (TN/30136)	01-11-2001 to 31-10-2003
52	-do- dt. 01-11-1995	M/s. Tropical Agro Systems (I) Ltd. & its branches (TN/7839)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
53	-do- dt. 17-08-1999	M/s. SRP Tools Ltd., Ranipet (TN/9925)	01-06-2001 to 31-05-2004
54	-do- dt. 13-01-2000	M/s. Vecons Energy Systems (P) Ltd, Trichy (TN/19918)	01-03-2001 to 29-02-2004
55	-do- dt. 30-11-2000	M/s. Thirupathur Co-op. Sugar Mills Ltd. (TN/11146)	01-12-2000 to 30-11-2003
56	-do- dt. 11-01-2001	M/s. Rathinam Automobiles, Tirunelveli (TN/11417)	24-06-2000 to 23-06-2003

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
57	-do- dt. 15-11-1997	M/s. Ind Ital Chemicals Ltd. (TN/4637)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
58	-do- dt. 17-08-1999	M/s. Qualkraft Engg. (P) Ltd. (TN/30452)	24-06-2000 to 30-11-2000 & 01-12-2000 to 30-11-2003
59	-do- dt. 19-03-1999	M/s. structural Combines (P) Ltd. (TN/16990)	01-08-1998 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-07-2000 & 01-08-2000 to 31-07-2003
60	-do- dt. 12-03-1999	M/s. Mach Engg. Co. (TN/17610)	24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 28-02-2004
61	-do- dt. 03-04-2000	M/s. Talbros Automobiles Components Ltd. (TN/12344)	24-06-2000 to 30-06-2000 & 01-07-2000 to 30-06-2003
62	-do- dt. 30-11-2000	M/s. axels India Ltd. a& its 3 branches (TN/18793)	01-12-2000 to 30-11-2003
63	-do- dt. 10-01-1999	M/s. Kwality Precision Products (P) Ltd. (TN/5646)	01-02-2000 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-01-2001 & 01-02-2001 to 31-01-2004
64	-do- dt. 09-12-1994	M/s. Nellai Cotton Mills Ltd., Tirunelveli (TN/1035)	01-09-1993 to 31-08-1996 & 01-09-1996 to 30-11-1998
65	-do- dt. 26-03-1999	M/s. J.K. PharmaChem Ltd & its branches (TN/32750)	01-03-2001 to 29-02-2004
66	-do- dt. 08-07-1999	M/s. Shafteq Shameel & Co., Ambur (TN/5766)	01-03-2000 to 30-11-2000 & closed w.e.f. 30-11-2000

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
67	-do- dt. 11-03-1999	M/s. John Grane Sealoi (I) Ltd. (TN/36974)	24-06-2000 to 31-12-2000 & 01-01-2001 to 31-12-2003
68	-do- dt. Nil	M/s. Mayil Vahanan Transport Aranyukottai (TN/9892)	01-04-2002 to 31-03-2005
69	-do- dt. 13-01-1994	M/s. SKM Animal Feeds & Foods (I) Ltd. & its 27 branches (TN/17247)	04-01-1994 to 03-01-1997 & 04-01-1997 to 03-01-2000 & 04-01-2000 to 03-01-2003
70	-do- dt. 19-02-2001	M/s. Best & Crompton Engg Ltd. (TN/849A)	24-06-2000 to 30-04-2001 & 01-05-2001 to 30-04-2004
71	-do- dt. 03-08-1993	M/s. Prachidi Spinners (P) Ltd. (TN/10247)	01-12-1993 to 30-11-1996 & 01-12-1996 to 30-11-1999 & 01-12-1999 to 30-11-2002
72	-do- dt. 30-08-2000	M/s. The Continental Match Co., Aruppukottai (TN/37882)	24-06-2000 to 31-03-2002 & 01-04-2002 to 31-03-2005
73	-do- dt. 30-11-2001	M/s. Palani Andavar Mills Ltd., Udumalpet (TN/49)	26-12-1999 to 25-12-2002 & 26-12-2002 to 25-12-2005
74	-do- dt. 29-08-2001	M/s. SICGIL India Ltd., Chennai (TN/878)	24-06-2003 to 23-06-2006
75	-do- dt. 03-04-2000	M/s. Lucas TVS Ltd. & its 2 branches (TN/4045)	24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
76	-do- dt. 19-03-1999	M/s. TI Miller (TN.4818)	24-06-2000 to 31-10-2000 & 01-11-2000 to 31-10-2003

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
77	-do- dt. 24-11-1995	M/s. Britannia Industries Ltd. (TN/4843)	01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-03-2001 & 01-04-2001 to 31-03-2004
78	-do- dt. 19-03-1999	M/s. Beama Manufacturers (P) Ltd. & its branch (TN/5230)	01-04-2000 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-03-2001
79	-do- dt. 19-05-1999	M/s. Rane Brake Linings Ltd. (TN/5932)	24-06-2000 to 30-06-2001 & 01-07-2001 to 30-06-2004
80	-do- dt. 04-09-2001	M/s. A-Bond Strands (P) Ltd. (TN/6954)	24-06-2003 to 23-06-2006
81	-do- dt. 04-09-2001	M/s. A. Bond Strands (P) Ltd. (Switchgear Division) (TN/6954-A)	24-06-2003 to 23-06-2006
82	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Chemplast Sanmar Ltd. (TN/6236)	24-06-2003 to 23-06-2006
83	-do- dt. 24-02-1992	M/s. The Eimco KCP Ltd. (TN/7383)	01-03-1993 to 29-02-1996 & 01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
84	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Vijay Home Appliances Ltd. & its 11 branches (TN/7808)	24-06-2003 to 23-06-2006
85	-do- dt. 04-09-2001	M/s. MMG (I) (P) Ltd. (TN/10510)	24-06-2003 to 23-06-2006
86	-do- dt. 19-02-2001	M/s. Lakshmi Machine Works Ltd. (TN/12490)	24-06-2000 to 23-06-2003

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
87	-do- dt. 19-03-1999	M/s. Toshniwal Hyvac (P) Ltd. (TN/16239)	24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
88	-do- dt. 31-01-2000	M/s. Vidyut Agni Sales & Services (P) Ltd. (TN/17168)	01-02-2001 to 31-01-2004
89	-do- dt. 28-08-1998	M/s. Elgi Tyres & Tread Ltd., Coimbatore (TN/21256)	01-10-1999 to 30-09-2002 & 01-10-2002 to 30-09-2005
90	-do- dt. 03-04-1993	M/s. Bannariamman Sugars Ltd. & its H.O. (TN/21773)	01-03-1993 to 29-02-1996 & 01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 28-02-2002
91	-do- dt. 24-09-2001	M/s. Inox Air Products Ltd. (TN/22010)	24-06-2003 to 23-06-2006
92	-do- dt. 29-08-2001	M/s. SBI Staff Co-op. Society Ltd. (TN/22052)	24-06-2003 to 23-06-2006
93	-do- dt. 04-09-2001	M/s. International Dev. & Engg. Associates Ltd. & its 2 branches (TN/22560)	24-06-2003 to 23-06-2006
94	-do- dt. 04-09-2001	M/s. MEASI Matric Hr. Sec. School (TN/23002)	24-06-2003 to 23-06-2006
95	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Arjun Associates (P) Ltd. & its 9 branches (TN/23086)	24-06-2003 to 23-06-2006
96	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Vijay Transformers (TN/23155)	01-03-2003 to 28-02-2006
97	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Fichner Consulting Engg. (I) (P) Ltd. (TN/23377)	24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
98	-do- dt. 12-03-1999	M/s. Vigneshwara Electricals (P) Ltd (TN/25061)	01-12-1999 to 30-11-2002 & 01-12-2002 to 30-11-2005
99	-do- dt. 20-05-1999	M/s. Indiad Engg. Pvt. Ltd. (TN/26117)	01-03-2001 to 29-02-2004
100	-do- dt. 29-08-2001	M/s. California Software Co. Ltd. (TN/35508)	01-02-2003 to 31-01-2006
101	-do- dt. 29-08-2001	M/s. Shoetek Agencies (TN/35563)	24-06-2003 to 23-06-2006
102	-do- dt. 07-05-2002	M/s. RPG Cellular Services Ltd. (TN/35676)	24-06-2003 to 23-06-2006
103	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Bharti Mobinet Ltd. (TN/35745)	24-06-2003 to 23-06-2006
104	-do- dt. 24-09-2001	M/s. Premier Airfreight Ltd. (TN/36337)	24-06-2003 to 23-06-2006
105	-do- dt. 07-05-2002	M/s. NERA (I) Ltd. & its 1 branch (TN/36441)	24-06-2003 to 23-06-2006
106	-do- dt. 04-09-2001	M/s. National Trust Housing Finance Ltd. & 3 branches (TN/36638)	24-06-2003 to 23-06-2006
107	-do- dt. 28-08-2001	M/s. Park Llyod International (P) Ltd. (TN/36922)	24-06-2003 to 23-06-2006
108	-do- dt. 10-09-2002	M/s. Saint Gobain Glass (I) Ltd. (TN/40002)	01-09-2001 to 31-08-2003
109	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Floram Shoes (I) (P) Ltd. (TN/40070)	24-06-2003 to 23-06-2006
110	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Unico Leather Products (P) Ltd. (TN/40071)	24-06-2003 to 23-06-2006



## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
111	-do- dt. 08-11-2000	M/s. Schwing Stetter (I) (P) Ltd. (TN/40984)	24-06-2000 to 31-10-2000 & 01-11-2000 to 31-10-2003
112	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Beardsell Ltd., Chennai & its 9 branches (TN-129-A)	24-06-2003 to 23-06-2006
113	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Swift Shipping (Madras) (P) Ltd. (TN/31) & 3	24-06-2003 to 23-06-2006
114	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Interfreight Services (P) Ltd. & its 7 branches (TN/23447)	01-12-2000 to 30-11-2003
115	-do- dt. 30-11-2000	M/s. T.I. Diamond Chain Ltd. (TN/2975)	01-12-2000 to 30-11-2003
116	-do- dt. 31-08-1998	M/s. Iris Dev. Engg. Applications Ltd. (TN/36039)	01-10-2000 to 30-09-2003
117	-do- dt. 02-07-1993	M/s. Tube Products of India, Chennai (TN/1089)	01-01-1995 to 31-12-1998 & 01-01-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-12-2000 & 01-01-2001 to 31-12-2003
118	-do- dt. 13-10-2002	M/s. BTP India & its H.O. & factory (TN/30329)	24-06-2000 to 23-06-2006
119	-do- dt. 09-10-2002	M/s. Freims Engg. (P) Ltd. (TN/23847)	24-06-2000 to 23-06-2003
120	-do- dt. 25-03-1994	M/s. Kiwi Conveyors, Chennai (TN/19263)	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-04-2004

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
121	-do- dt. 07-04-1999	M s. V.R. Foundaries, Coimbatore (TN/11075)	01-01-2000 to 31-12-2002 01-01-2003 to 31-12-2005
122	-do- dt. 01-04-1999	M s. College 74, Fil Chambers Building. 604, Anna Salai, Chennai (TN/11323)	01-12-1999 to 30-11-2002
123	-do- dt. 19-02-2001	M s. Ambattur Clothings & its branches (TN/16772)	24-06-2000 to 30-11-2000 & 01-12-2000 to 30-11-2003
124	-do- dt. 23-11-1995	M s. T.I. Metal Foaming, Tiruvallur (TN/16743)	01-03-1995 to 28-02-1998 & 01-03-1998 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
125	-do- dt. 03-04-2000	M s. Concrete Products & Construction Co. (TN/9726)	01-04-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-03-2001 & 01-04-2001 to 31-03-2004
126	-do- dt. 11-03-1999	M s. Abref (P) Ltd, Gummidipondi (TN/35829)	24-06-2000 to 31-10-2000 & 01-11-2000 to 31-10-2003
127	-do- dt. 09-02-2000	M s. Paltern & Carpentry Works (TN/10343)	01-04-2002 to 31-03-2005
128	-do- dt. 21-09-2001	M s. Fives Coil KCP Ltd. (TN/35772)	24-06-2000 to 23-06-2003 & 24-06-2003 to 23-06-2006
129	-do- dt. 02-08-2002	M s. Compass shipping & Trading (P) Ltd. & its 5 branches (TN/36819)	24-06-2000 to 23-06-2003 & 24-06-2003 to 23-06-2006
130	-do- dt. 18-02-2003	M s. PPN Power Generating Co. Ltd. (TN/36041)	24-06-2000 to 23-06-2003 & 24-06-2000 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
131	-do- dt. 28-08-1998	M/s. Valli Textile Mills Ltd. (TN/20015)	01-01-2000 to 31-10-2000
132	-do- dt. 19-05-1999	M/s. Vellore District Central Co-op. Bank Ltd. (TN/4194)	25-08-2000 to 24-08-2003
133	-do- dt. 07-04-1999	M/s. Vijayaraja & Co. (TN/11467)	01-03-2000 to 28-02-2003 & 01-03-2003 to 28-02-2006
134	-do- dt. 14-07-1999	M/s. Nilgris Central Co-op. Bank Ltd. (TN/4108)	11-02-2000 to 10-02-2003 & 11-02-2003 to 10-02-2006
135	-do- dt. 26-03-1999	M/s. Sri Venkateswara Co. (TN/7047)	01-03-2000 to 28-02-2003 & 01-03-2003 to 28-02-2006
136	-do- dt. 16-02-1999	M/s. The Southern Tools Services (TN/11048)	01-08-2001 to 31-07-2004
137	-do- dt. 11-08-1999	M/s. EMI Associated Hotels Ltd. (TN/26101)	01-10-1999 to 30-09-2002 & 01-10-2002 to 30-09-2005
138	-do- dt. 12-03-1999	M/s. Sampurna Shree Spinning Mills (P) Ltd. (TN/18774)	01-02-2000 to 31-01-2003 & 01-02-2003 to 31-01-2006
139	-do- dt. 02-08-2002	M/s. The Master Recording Co. Ltd. (TN/22568)	24-06-2000 to 23-06-2003
140	-do- dt. 23-02-2001	M/s. Unimech Industries Ltd. (TN/17274)	01-03-2003 to 28-02-2006
141	-do- dt. 01-02-1994	M/s. Seshasayee Paper & Boards Ltd. (TN/4028 & 4028A)	24-12-1995 to 23-12-1998 & 24-12-1998 to 23-12-2001
142	-do- dt. 16-03-1999	M/s. Hotel city Tower (TN/21541)	01-03-2000 to 28-02-2003 & 01-03-2003 to 28-02-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
143	-do- dt. 07-04-1999	M/s. Aarvee Hotels (TN/21501)	01-06-2000 to 31-05-2003 & 01-06-2003 to 31-05-2006
144	-do- dt. 28-04-1998	M/s. Indo Shell (TN/10896)	01-03-1997 to 29-02-2000 & 01-03-2000 to 28-02-2003 & 01-03-2003 to 28-02-2006
145	-do- dt. 23-06-1993	M/s. Electron Engg. Industries (P) Ltd. (TN/10531)	01-03-1995 to 28-02-1998 & 01-03-1998 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
146	-do- dt. 01-01-1999	M/s. Prodonite Anticorrosives (P) Ltd. (TN/4231)	01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
147	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Tablets (I) Ltd & its branches (TN/3829)	24-06-2003 to 23-06-2006
148	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Diana World Travels (P) Ltd. (TN/26794)	24-06-2003 to 23-06-2006
149	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Artec Produvits (P) Ltd. & its branches (TN/49010)	01-05-2003 to 30-04-2006
150	-do- dt. 04-09-2001	M/s. G.R. Thangamalgayi Jewellery (TN/11798)	24-06-2003 to 23-06-2006
151	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Postalia Inter Frank (P) Ltd. & its Delhi branch (TN/11252)	24-06-2003 to 23-06-2006
152	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Asia Tobacco Co. Ltd. (TN/10161A)	24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
153	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Lakshmi Cargo Co. Ltd. & its branches (TN/26916)	24-06-2003 to 23-06-2006
154	-do- dt. 29-08-2001	M/s. United India Shoe Corpn. (P) Ltd. (TN/9504A)	24-06-2003 to 23-06-2006
155	-do- dt. 18-02-2003	M/s. New horizon Sugar Mills Ltd. (TN/24)	24-06-2003 to 23-06-2006
156	-do- dt. 29-08-2001	M/s. Sundram Motors (TN/1135)	24-06-2003 to 23-06-2006
157	-do- dt. 29-08-2001	M/s. Amrutanjan Ltd. (TN/853)	24-06-2003 to 23-06-2006
158	-do- dt. 07-04-1999	M/s. K.G. Hospital (TN/10901)	01-02-2000 to 31-01-2003 & 01-02-2003 to 31-01-2006
159	-do- dt. 23-11-1995	M/s. ICF Silver Jubilee Matriculation Hr. Sec. School (TN/14792)	01-03-1993 to 29-02-1996 & 01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-08-2000 & 01-09-2000 to 31-08-2003
160	-do- dt. 04-09-2001	M/s. The George Town Co-op. Stores Ltd. (TN/23275)	24-06-2003 to 23-06-2006
161	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Plastiline (TN/36398)	24-06-2003 to 23-06-2006
162	-do- dt. 19-03-1999	M/s. Rajshree Spinning Mills (P) Ltd. (TN/17505)	01-02-2000 to 31-01-2003 & 01-02-2003 to 31-01-2006
163	-do- dt. 04-09-2001	M/s. FFE Mineral (I) Ltd. (TN/36280)	24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
164	-do- dt. 07-05-2002	M/s. American Megatrends (I) (P) Ltd (TN/36623)	24-06-2003 to 23-06-2006
165	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Bharathiyar Co-op. Stress Ltd. (TN/39851)	01-02-2003 to 31-01-2006
166	-do- dt. 29-08-2001	M/s. K7 Computing (P) Ltd. (TN/36220)	01-03-2003 to 28-02-2006
167	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Vimplex (I) (P) Ltd & its 7 branches (TN/36153)	24-06-2003 to 23-06-2006
168	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Southern Agrifubrane Industries Ltd. (TN/8665)	24-06-2003 to 23-06-2006
169	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Gautier (I) Ltd. (TN/40367)	24-06-2003 to 23-06-2006
170	-do- dt. 21-09-2001	M/s. The T.N. Circle Postal Co-op. Bank Ltd. (TN/4132)	24-06-2003 to 23-06-2006
171	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Scientific Publishing Services (P) Ltd. (TN/39246)	24-06-2003 to 23-06-2006
172	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Murugappa Management Services Ltd. (TN/8293)	24-06-2003 to 23-06-2006
173	-do- dt. 10-08-1999	M/s. Southern Structural Ltd. (TN/2875)	24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
174	-do- dt. 10-01-1999	M/s. Perks Matriculation Hr. Sec. School (TN 21638)	01-02-2000 to 31-01-2003 & 01-02-2003 to 31-01-2006
175	-do- dt. 17-11-1999	M/s. Saphagiri Spinning Mills (P) Ltd. (TN/21312)	01-03-2002 to 28-02-2003

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
176	-do- dt. 11-03-1999.	M/s. Usha Fire Safety Equipments (P) Ltd. & its 5 branches (TN/31615)	01-09-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-08-2000 & 01-09-2000 to 31-08-2003
177	-do- dt. 20-05-1999	M/s. India Japan Lighting Ltd. (TN/39692)	24-06-2000 to 31-12-2000 & 01-01-2001 to 31-12-2003
178	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Indian Aditives Ltd. (TN/36423)	24-06-2003 to 23-06-2006
179	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Horticontracts (TN/22224)	24-06-2003 to 23-06-2006
180	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Agri Horticultural Consultants (TN/22668)	24-06-2003 to 23-06-2006
181	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Traders & Traders & its 3 branches (TN/3338)	24-06-2003 to 23-06-2006
182	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Thangamaligai Silver Art Wares (TN/11798-A)	24-06-2003 to 23-06-2006
183	-do- dt. 24-08-2001	M/s. Fuller India Ltd. & its branches (TN/19248)	24-06-2003 to 23-06-2006
184	-do- dt. 04-09-2001	M/s. AVM Charities (TN/12467)	24-06-2003 to 23-06-2006
185	-do- dt. 04-09-2001	M/s. G.R. Thangamaligai Ltd. (TN/117986, C)	24-06-2003 to 23-06-2006
186	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Pondicherry Coforate Ltd. (TN/PC/302)	24-06-2003 to 23-06-2006
187	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Dohlar India (P) Ltd. (TN/36641)	24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
188	-do- dt. 21-09-2001	M/s. CSI Kalyani General Hospital (TN/7535)	24-06-2003 to 23-06-2006
189	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Effylgent Technologies (P) Ltd. (TN/39819)	01-03-2003 to 28-02-2006
190	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Q Max Test Equipments Ltd. (TN/36753)	24-06-2003 to 23-06-2006
191	-do- dt. 21-09-2001	M/s. The Rly. Employees Co-op Credit Society Ltd. & its 4 branches (TN/4153)	24-06-2003 to 23-06-2006
192	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Marina Shoes Ltd. (TN/48504)	01-06-2003 to 31-05-2006
193	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Q Max Test Technologies (P) Ltd. & its branches (TN/36753A)	24-06-2003 to 23-06-2006
194	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Mahalakshmi Enterprises (TN/26851)	24-06-2003 to 23-06-2006
195	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Supra Marketing Associates & its 11 branches (TN/30135)	24-06-2003 to 23-06-2006
196	-do- dt. 07-05-2002	M/s. IBP Co. Ltd. & its branches (TN/11026)	24-06-2003 to 23-06-2006
197	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Ashok Leyland Ltd. (TN/44)	24-06-2003 to 23-06-2006
198	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Bal Vidya Mandir Sr. Sec. School (TN/23214)	24-06-2003 to 23-06-2006



## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
199	-do- dt. 04-09-2001	M/s. The Tamil Nadu Handicrafts Dev. Corpn Ltd. & its 23 branches (TN/9055)	24-06-2003 to 23-06-2006
200	-do- dt. 19-02-2001	M/s. Madras Race Club & its branch (TN/3117)	01-07-2002 to 30-06-2005
201	-do- dt. 15-05-1999	M/s. The Rangaraj Surgical Cotton Mills (TN/183)	01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2005
202	-do- dt. 31-01-2000	M/s. Castwell Ambattur Industrial Estate (TN/17665)	24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
203	-do- dt. 07-05-2002	M/s. United India Roller Flour Mills (TN/3811)	24-06-2003 to 23-06-2006
204	-do- dt. 28-08-2001	M/s. Chona Financial Services (P) Ltd. & its 9 branches (TN/48538)	24-06-2003 to 23-06-2006
205	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Prakash Trading Co. (TN/22242)	24-06-2003 to 23-06-2006
206	-do- dt. 28-08-2001	M/s. Foster Wheeler India (P) Ltd. (TN/40455)	24-06-2003 to 23-06-2006
207	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Matchwell Enterprises (TN/40218)	24-06-2003 to 23-06-2006
208	-do- dt. 28-08-2001	M/s. Procargo (I) (P) Ltd. (TN/36180)	24-06-2003 to 23-06-2006
209	-do- dt. 07-05-2002	M/s. 21 <sup>st</sup> Century Pest Control Services (P) Ltd. (TN/36735)	24-06-2003 to 23-06-2006
210	-do- dt. 18-02-2003	M/s. Quality Inn Aranna (TN/36215)	24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
211	-do- dt. 18-02-2003	M/s. Khadi GramUdyog Bhawan & its 9 branches (TN/3218)	24-06-2003 to 23-06-2006
212	-do- dt. 19-05-1999	M/s. Gopal Metal Containers (P) Ltd. & its 1 branch (TN/6943)	01-05-2001 to 30-04-2004
213	-do- dt. 21-09-2001	M/s. The Sindoori Central Hotel (TN/23342A)	24-06-2003 to 23-06-2006
214	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Cricinfo (I) (P) Ltd. (TN/48399)	01-05-2003 to 30-04-2006
215	-do- dt. 07-05-2003	M/s. AB Sales Corpn. (TN/26181)	24-06-2003 to 23-06-2006
216	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Durr (I) (P) Ltd. & its 40 branches (TN/36852)	24-06-2003 to 23-06-2006
217	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Sical CWT Distriparks Ltd., Factory & Regd. Office (TN/36448)	24-06-2003 to 23-06-2006
218	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Lucas India Service Ltd. & its 3 branches (TN/1141)	24-06-2003 to 23-06-2006
219	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Vason Publications (P) Ltd. (TN/573)	24-06-2003 to 23-06-2006
220	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Shakes & Cream (TN/9643A)	24-06-2003 to 23-06-2006
221	-do- dt. 07-05-2002	M/s. The Pondicherry Co-op. Urban Bank Ltd. & its 4 branches (TN/36395)	24-06-2003 to 23-06-2006
222	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Vetri Software (I) Ltd. (TN/36395)	24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
223	-do- dt. 07-05-2002	M/s. V.T. Padmanabhan & Bros. (TN/8459)	24-06-2003 to 23-06-2006
224	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Ambali Enterprises & its 6 branches (TN/3184)	24-06-2003 to 23-06-2006
225	-do- dt. 04-09-2001	M/s. T. Abdul Wahid Tanneries (P) Ltd. (TN/10602A)	24-06-2003 to 23-06-2006
226	-do- dt. 04-09-2001	M/s. V.S.T. Service Station (P) Ltd (TN/1134)	24-06-2003 to 23-06-2006
227	-do- dt. 07-05-2002	M/s. SRF Ltd., Chennai (TN/9927)	24-06-2003 to 23-06-2006
228	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Adyar Bakery (P) Ltd & its 12 branches (TN/9643)	24-06-2003 to 23-06-2006
229	-do- dt. 29-08-2001	M/s. Eastern Chrome Tanning Corp. Ltd. (TN/9386)	24-06-2003 to 23-06-2006
230	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Automotive Ancillary Services (P) Ltd. (TN/8567)	24-06-2003 to 23-06-2006
231	-do- dt. 07-05-2002	M/s. The Eye Research Foundation (TN/26576)	24-06-2003 to 23-06-2006
232	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Tamil Nadu Urban Finance Infrastructure Dev. Corpn. Ltd. (TN/26503)	24-06-2003 to 23-06-2006
234	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Nagraj & Co. (P) Ltd. (TN/8457)	24-06-2003 to 23-06-2006
235	-do- dt. 29-08-2001	M/s. India Garage & its 5 branches (TN/8236)	24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
236	-do- dt. 29-08-2001	M/s. Savera Hotels Ltd. (TN/6557)	24-06-2003 to 23-06-2006
237	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Femina Products & its 2 branches (TN/12469)	24-06-2003 to 23-06-2006
238	-do- dt. 21-09-2001	M/s. Tejo Engg. Services (P) Ltd. & its 7 branches (TN/17299)	24-06-2003 to 23-06-2006
239	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Bhardwaj Industries & its branch (TN/16415)	24-06-2003 to 23-06-2006
240	-do- dt. 18-02-2003	M/s. Sanmar Weighing Systems Ltd. (TN/16098)	24-06-2003 to 23-06-2006
241	-do- dt. 18-02-2003	M/s. The Voluntary Health Services (TN/7536)	24-06-2003 to 23-06-2006
242	-do- dt. 02-08-2002	M/s. Deltatec Solutions (P) Ltd (TN/36401)	01-04-2003 to 31-03-2006
243	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Scientific Publishing Services (P) LTD (TN/48255)	24-06-2003 to 23-06-2006
244	-do- dt. 02-08-2002	M/s. AGM Precision Tools (P) Ltd. & Its unit (TN/35764)	24-06-2003 to 23-06-2006
245	-do- dt. 07-05-2002	M/s. BS&B Safety Systems (I) Ltd. (TN/12126)	24-06-2003 to 23-06-2006
246	-do- dt. 24-08-2001	M/s. SOS (P) Ltd. (TN/21137)	24-06-2003 to 23-06-2006
247	-do- dt. 18-02-2003	M/s. Matra Printers & its branch (TN/17807)	24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
248	-do- dt. 29-08-2001	M/s. International Services (TN/16445)	24-06-2003 to 23-06-2006
249	-do- dt. 29-08-2001	M/s. The Mylapore Hindu Permanent Fund & its 7 branches (TN/10653)	24-06-2003 to 23-06-2006
250	-do- dt. 28-08-2001	M/s. Sri Chakra Ltd., Madurai (TN/20359A)	24-06-2003 to 23-06-2006
251	-do- dt. 29-08-2001	M/s. Elcampo Electronics Industries (P) Ltd (TN/10029)	24-06-2003 to 23-06-2006
252	-do- dt. 04-09-2001	M/s. IND Bank Merchant Banking Services Ltd. (TN/26084)	24-06-2003 to 23-06-2006
253	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Brilliant Coating (P) Ltd. & its 3 branches (TN/23464)	24-06-2003 to 23-06-2006
254	-do- dt. 29-08-2001	M/s. Vijaya Hospital (TN/9868)	24-06-2003 to 23-06-2006
255	-do- dt. 19-03-1999	M/s. TVS Srichakra Ltd., Moulded Products Division (TN/16774)	01-01-2000 to 31-12-2002 & 01-01-2003 to 31-12-2005
256	-do- dt. 19-05-1999	M/s. Sri Balasubramina Mills (TN/63)	01-03-2000 to 28-02-2003
257	-do- dt. 26-08-1998	M/s. Auto Moulders Ltd. (TN/17273)	01-05-2000 to 30-04-2003 & 01-05-2003 to 30-04-2006
258	-do- dt. 12-03-1999	M/s. Aquasub Engg. (TN/19230)	01-05-2000 to 30-04-2003 & 01-05-2003 to 30-04-2006
259	-do- dt. 12-03-1999	M/s. United Cabs (TN/21394)	31-05-2000 to 30-05-2003 & 31-05-2003 to 30-05-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
260	-do- dt. 19-03-1999	M/s. Motors & Services (P) Ltd (TN/12282)	01-05-2000 to 30-04-2003 & 01-05-2003 to 30-04-2006
261	-do- dt. 03-08-1993	M/s. Mettupalayam Co-op. Stores Ltd. (TN/16911)	01-09-1993 to 30-08-1996 & 01-09-1996 to 30-08-1999 & 01-09-1999 to 30-08-2002
262	-do- dt. 08-07-1999	M/s. Apple Credit Corpn. Ltd. (TN/23907)	01-12-2000 to 30-11-2003
263	-do- dt. 19-02-2001	M/s. Hi- Power Automotive Parts (P) Ltd. (TN/10788)	24-06-2000 to 28-02-2001 & 01-03-2001 to 29-02-2004
264	-do- dt. 31-01-2000	M/s. Pandian Chemicals Ltd. (TN/9551)	09-06-2002 to 08-06-2005
265	-do- dt. 17-08-1999	M/s. Madras Swastic engg. (P) Ltd (TN/1105)	24-06-2000 to 30-04-2001 & 01-05-2001 to 30-10-2001
266	-do- dt. 26-0-1998	M/s. India Radiators Ltd. (TN/1105)	01-03-1999 to 28-02-2000 & restrict to Exemp. Upto 28-02-2002
267	-do- dt. 09-01-2001	M/s. Hydro S&S Industries Ltd. & its 6 branches (TN/27152)	24-06-2000 to 23-06-2003 & 24-06-2003 to 30-06-2003
268	-do- dt. 30-03-2000	M/s. NLC Employees Co-op. Thrift & Credit Society Ltd. (TN/8170)	01-01-2002 to 31-12-2003
269	-do- dt. 30-01-1996	M/s. Worth Industries, Vellore (TN/4677)	27-06-1997 to 26-07-2000 & 27-06-2003 to 26-06-2003

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
270	-do- dt. 03-04-2000	M/s. Southern Group Industries (P) Ltd. (TN/9774)	01-03-2002 to 23-06-2003 & 24-06-2003 to 23-06-2006
271	-do- dt. 09-02-2000	M/s. Sholinghur Textiles Ltd. (TN/9294)	01-01-2000 to 31-12-2002 & 01-01-2003 to 31-12-2003
272	-do- dt. 07-03-1994	M/s. Bannarianammah Sugars Ltd. (Distillery Division) (TN/16349)	01-03-1993 to 29-02-1996 & 01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2005
273	-do- dt. 22-11-2000	M/s. Kanyakumari District Central Co-op. Bank Ltd. & its 16 branches (TN/4144)	24-06-2000 to 23-06-2003
274	-do- dt. 13-01-1999	M/s. Pioneer Spinners (TN/7707)	01-01-2000 to 31-12-2002 & 01-03-2002 to 31-12-2005
275	-do- dt. 01-06-1998	M/s. Complete Business Solutions (I) Ltd. (TN/30027)	01-09-1999 to 31-08-2002 & 01-09-2002 to 31-08-2005
276	-do- dt. 31-01-2000	M/s. Prime Textiles Ltd. (TN/ 46)	31-03-2002 to 30-03-2005
277	-do- dt. 08-11-2000	M/s. Tuticorin Thermal Power Station Indl. Co-op. Society Ltd. (TN/24064)	01-02-1999 to 30-04-1999 (estt. closed w.e.f. 01-05- 1999)
278	-do- dt. 08-11-2000	M/s. Aruppukottai Shri Jayakrishna Spinning Mills (P) Ltd. (TN/41728)	24-06-2000 to 31-08-2002 & 01-09-2002 to 28-02-2005
279	-do- dt. 19-02-2001	M/s. The Nilgiris Co-op. Mkt. Society Ltd. (TN/2686)	24-06-2000 to 23-06-2003 & 24-06-2003 to 23-06-2006

## TAMIL NADU

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of Estt. with Code No.	Effective date of exemption
280	-do- dt. 21-08-2001	M/s. A-Bond Strands (TN/6954B)	24-06-2003 to 23-06-2006 &
281	-do- dt. 07-05-2002	M/s. Accel Ltd. (TN/31171)	24-06-2003 to 23-06-2006
282	-do- dt. 17-02-1996	M/s. Amalgamations Repco Ltd & its branch (TN/7392)	01-04-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 23-06-2000 & 24-06-2000 to 31-03-2001 & 01-04-2001 to 31-03-2004
283	-do- dt. 04-09-2001	M/s. T. Abdul Wahid & Co. (TN/2215B)	24-06-2003 to 23-06-2006
284	-do- dt. 04-09-2001	M/s. T. Abdul Wahid & Co. (TN/2215)	24-06-2003 to 23-06-2006
285	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Skandia Soles & Services (P) Ltd (TN/318050)	24-06-2003 to 23-06-2006
286	-do- dt. 04-09-2001	M/s. Thangamaligai & Co. (TN/16015)	24-06-2003 to 23-06-2006
287	-do- dt. 07-05-2002	M/s. German Leprosy Relief Association (TN/17592)	24-06-2003 to 23-06-2006
288	-do- dt. 07-05-2002	M/s. A.S. Transport (P) Ltd. & its 36 branches (TN/16607)	24-06-2003 to 23-06-2006
289	-do- dt. 13-01-2000	M/s. Express Publications (Madurai) Ltd. (TN/8486)	01-03-1999 to 28-02-2002 & 01-03-2002 to 28-02-2005
290	-do- dt. 14-01-2000	M/s. ABI Swatch (I) Ltd (TN/31573)	01-10-1999 to 30-09-2002 7 01-10-2002 to 30-09-2005




S C H E D U L E - II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee or legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
9. Therefore any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (s) Legal heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) Legal Heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

2/1959/DLI/Exem./89/Pt-I



**Regional Provident Fund Commissioner**

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Bhubaneswar-22, the 22nd January 2004

No. 44-V-J4/12/18/82-Bft—It is hereby notified that the Local Committee, Balasore Area in the district of Balasore set up under Regulation 10-A of the E.S.I. (General) Regulations-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Under Regulation 10-A(1)(a)<br>Sub-Collector, Balasore  | Chairman                         |
| 2. Under Regulation 10-A(1)(b)<br>District Labour Officer, Balasore                                    | Member                           |
| 3. Under Regulation 10-A(1)(c)<br>I.M.O. In-Charge, E.S.I. Dispensary, Balasore                        | Member                           |
| 4. Under Regulation 10-A(1)(d)<br>(Employers' Representative)  | Member                           |
| (i) Sri Biranchi Narayan Mallick,<br>Manager (Finance) of Oriplas Ltd., Balasore                       | Member                           |
| (ii) Sri Nakul Kumar,<br>Manager of Kumar Ceramic (P) Ltd.,<br>Ganeswarapur, Industrial Area, Balasore | Member                           |
| 5. Under Regulation 10-A(1)(e)<br>(Employees' Representative)  |                                  |
| (i) Sri Swarup Kumar Rana,<br>Eastern Cylinder (P) Ltd., Balasore                                      | Member                           |
| (ii) Sri Manoranjan Mohanty,<br>M/s. Cables India (P) Ltd.,<br>B-5, Industrial Estate, Balasore        | Member                           |
| 6. Under Regulation 10-A(1)(f)<br>Manager, Local Office, E.S.I. Corporation, Balasore                  | Member & Ex-Officio<br>Secretary |

C. R. NAIYA  
Regional Director

No. 44-V-34/12/29/89-Bft—It is hereby notified that the Local Committee, Kalunga Area in the district of Sundargarh set up under Regulation 10-A of the E.S.I. (General) Regulations-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Under Regulation 10-A(1)(a)<br>Sub-Collector, Panposh  | Chairman                         |
| 2. Under Regulation 10-A(1)(b)<br>District Labour Officer, Rourkela   | Member                           |
| 3. Under Regulation 10-A(1)(c)<br>I.M.O. In-Charge, E.S.I. Dispensary, Kalunga  | Member                           |
| 4. Under Regulation 10-A(1)(d)<br>(Employers' Representative)   |                                  |
| (i) Sri P. K. Sharma, Project Co-ordinator,<br>M/s. Chariot Cement Co. Ltd.,<br>Industrial Estate, Kalunga  | Member                           |
| (ii) Sri Harmohan Mohapatra,<br>Junior Executive, Commerical,<br>M/s. IFGL, Refractories Ltd.,<br>Sector-B, Kalunga, Industrial Estate,<br>Kalunga. | Member                           |
| 5. Under Regulation 10-A(1)(e)<br>(Employees' Representative)   |                                  |
| (i) Sri Jahangir Ali, Secretary, CITU,<br>State Committee on-behalf of Sundargarh<br>Industrial Mazdoor Union, Qr. No. A-49, Sector-16.             | Member                           |
| (ii) Sri S. S. Sahu, Branch Secretary,<br>Chariot Cement Co. Branch,<br>Sundargarh Shramik Sangha,<br>D-81, Sector-18, Rourkela-3                   | Member                           |
| 6. Under Regulation 10-A(1)(f)<br>Manager, Local Office, E.S.I. Corporation, Rourkela   | Member & Ex-Officio<br>Secretary |

C. R. NAIYA  
Regional Director

## **The Institute of Chartered Accountants of India**

New Delhi – 110002 **January 23, 2004**

No. 13-CA (EXAM)/M/2004 :- In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Professional Education - I, Professional Education -II and Final examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Similarly Post Qualification Courses in Management Accountancy Course (Part-I), Corporate Management Course (Part-I) and Tax Management Course (Part-I) examinations will also be held on the dates given below at the following centres (centres in India only) in terms of provisions as contained in "Schedules C, D and E" respectively of the Chartered Accountants Regulations, 1988, provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Further in accordance with the provisions as contained in "Schedule G" of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the first Post Qualification Course examination in Insurance and Risk Management (IRM) will also be held on the dates given below at the following centres ((centres in India only), provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

### **PROFESSIONAL EDUCATION- I EXAMINATION :**

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25-B (4) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

<b>8<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> May, 2004</b>
---

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

### **PROFESSIONAL EDUCATION- II EXAMINATION :**

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28-B (5) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

<b>Group-I : 3<sup>rd</sup>, 5<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> May, 2004</b>
--

<b>Group-II : 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> May, 2004</b>
--

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

### **FINAL EXAMINATION :**

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (2) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

<b>Group -I : 3<sup>rd</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> May, 2004</b>
---

<b>Group -II : 8<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> May, 2004</b>
---

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

**MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (PART-I), CORPORATE MANAGEMENT COURSE (PART-I) AND TAX MANAGEMENT COURSE (PART-I) EXAMINATIONS:**

[As per provisions contained in "Schedules C, D and E" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

<b>Group-I :</b>	<b>3<sup>rd</sup> and 5<sup>th</sup> May, 2004</b>
<b>Group-II :</b>	<b>6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> May, 2004</b>

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

**INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) COURSE EXAMINATION:**

[As per provisions contained in "Schedule G" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

<b>Modules I to IV</b>	<b>3<sup>rd</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> May, 2004</b>
------------------------	--

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

**EXAMINATION CENTRES :****(i) CENTRES IN INDIA :**

1	AGRA	24	COIMBATORE	47	JODHPUR	70	PUNE
2	AHMEDABAD	25	CUTTACK	48	KANPUR	71	RAIPUR
3	AJMER	26	DEHRADUN	49	KOLHAPUR	72	RAJKOT
4	AKOLA	27	DELHI/NEW DELHI	50	KOLKATA	73	RANCHI
5	ALLAHABAD	28	DHANBAD	51	KOTA	74	ROHTAK
6	ALLEPPEY	29	DURG	52	KOTTAYAM	75	SAHARANPUR
7	ALWAR	30	ERNAKULAM	53	LUCKNOW	76	SALEM
8	AMBALA	31	FARIDABAD	54	LUDHIANA	77	SHIMLA
9	AMRITSAR	32	GUWAHATI	55	MADURAI	78	SILIGURI
10	ASANSOL	33	GHAZIABAD	56	MANGALORE	79	SOLAPUR
11	AURANGABAD	34	GOA	57	MATHURA	80	SURAT
12	BANGALORE	35	GURGAON	58	MEERUT	81	TIRUCHIRAPALLI
13	BAREILLY	36	GWALIOR	59	MORADABAD	82	TRICHUR
14	BARODA	37	HISAR	60	MUMBAI	83	TRIVANDRUM
15	BATHINDA	38	HUBLI	61	MUZAFFARNAGAR	84	UDAIPUR
16	BELGAUM	39	HYDERABAD	62	MYSORE	85	UDUPI
17	BHILWARA	40	INDORE	63	NAGPUR	86	UJJAIN
18	BHOPAL	41	JABALPUR	64	NASIK	87	VARANASI
19	BHUBANESWAR	42	JAIPUR	65	NOIDA	88	VIJAYAWADA
20	BIKANER	43	JALANDHAR	66	PALGHAT	89	VISAKHAPATNAM
21	CALICUT	44	JALGAON	67	PANIPAT	90	YAMUNANAGAR
22	CHANDIGARH	45	JAMMU	68	PATIALA		
23	CHENNAI	46	JAMSHEDPUR	69	PATNA		

**(ii) OVERSEAS CENTRES : (ONLY FOR PROFESSIONAL EDUCATION – I, PROFESSIONAL EDUCATION-II AND FINAL EXAMINATIONS)**

<b>1) DUBAI (UAE)</b>	<b>2) KATHMANDU (NEPAL)</b>
-----------------------	-----------------------------

Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only. The Demand Drafts may be of any Nationalised Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Joint Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs.50/- per application form in respect of Professional Education - I, Professional Education -II and Final Examinations. The cost of Examination application forms for Management Accountancy Course (Part-I), Corporate Management Course (Part-I), Tax Management Course (Part-I) and Insurance and Risk Management (IRM) examinations is Rs. 25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from **5<sup>th</sup> February, 2004**.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Draft of any Nationalised Bank may be sent so as to reach the Joint Secretary (Examinations) at New Delhi not later than **26<sup>th</sup> February, 2004**. However, applications will also be received direct by Delhi Office after **26<sup>th</sup> February, 2004** and upto **4<sup>th</sup> March, 2004** with late fee of **Rs. 200/-**. Applications received after **4<sup>th</sup> March, 2004** shall not be entertained under any circumstances. Applications for the students' examinations only duly filled in will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto **26<sup>th</sup> February, 2004**. However, application forms duly completed for the members' examinations viz: Management Accountancy Course (Part-I), Corporate Management Course (Part-I), Tax Management Course (Part-I) and Insurance and Risk Management (IRM) examinations will be received **only** at the New Delhi office of the Institute.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under :-

**PROFESSIONAL EDUCATION– I EXAMINATION :**

Fee	Rs. 700/-
-----	-----------

**PROFESSIONAL EDUCATION– II EXAMINATION :**

For Both the Groups	Rs. 750/-
For One of the Groups	Rs. 450/-

**FINAL EXAMINATION:**

For Both the Groups	Rs. 900/-
For One of the Groups Only	Rs. 550/-

**MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (PART-I), CORPORATE MANAGEMENT COURSE (PART-I) AND TAX MANAGEMENT COURSE (PART-I) EXAMINATIONS:**

For Both the Groups	Rs. 400/-
For One of the Groups	Rs. 200/-

**INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION:**

Fee	Rs. 1000/-
-----	------------

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final examinations opting for Dubai Centre are required to remit US\$ 150 or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group or in both the groups.



Candidates of Professional Education – I, Professional Education – II and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Indian Rs.1200/- or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group or in both the groups.

**OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :**

Candidates of Professional Education – I, Professional Education – II and Final Examinations will be allowed to opt for Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form. However the medium of Examinations will be English only in respect of Management Accountancy Course (Part-I), Corporate Management Course (Part-I), Tax Management Course (Part-I) and Insurance and Risk Management (IRM) Examinations:



**(V. SAGAR)**  
**DEPUTY SECRETARY (EXAMS.)**